

  
**भारत का राजपत्र**  
**The Gazette of India**

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

---

सं. 47] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 19—नवम्बर 25, 2016 (कार्तिक 28, 1938)

---

No. 47] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 19—NOVEMBER 25, 2016 (KARTIKA 28, 1938)

---

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिस से कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

---

भाग I—खण्ड 4

[PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित  
अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by  
the Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 19 नवम्बर 2016

(सेना शाखा)

सं. 236, दिनांक 10 अक्टूबर 2016—राष्ट्रपति महोदय यथासंशोधित थल सेना अनुदेश 75/78 के अधीन 05 वर्ष के लिए निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं :—

नियमित सेना

अल्पकालीन आयोग

कप्तान के पद पर (परख पर)

कप्तान टी सोमन एम एस—17428—एच आयोग की तिथि 01.11.2014

को वेतन और पदोन्नति के लिये ज्येष्ठता 01.05.2014 से दी जाएगी। इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीने पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल हैं जो कि वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

कप्तान वसुंधरा मेहता एम एस-17545-एन आयोग की तिथि 01.11.2014

को वेतन और पदोन्नति के लिये ज्येष्ठता 01.05.2014 से दी जाएगी। इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीने पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल हैं जो कि वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

कप्तान यसस्वी खंडावल्ली एम एस 17405-एफ आयोग की तिथि 01.11.2014

को वेतन और पदोन्नति के लिये ज्येष्ठता 01.11.2011 से दी जाएगी। (इसमें स्नातकोत्तर योग्यता मास्टर ऑफ सर्जरी (प्रसूति एवं स्त्री रोग विज्ञान) के लिए 36 महीने पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल हैं जो कि वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

कप्तान रूपक कुमार सिंह एम एस 17533—वाई आयोग की तिथि 01.11.2014

को वेतन और पदोन्नति के लिये ज्येष्ठता 01.11.2011 से दी जाएगी। (इसमें स्नातकोत्तर योग्यता डॉक्टर ऑफमेडिसीन (शरीरक्रियाशास्त्र) के लिए 36 महीने पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल हैं जो कि वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

कप्तान भारतमणि चौधुरी एम एस-17639-एल आयोग की तिथि 11.01.2015

को वेतन और पदोन्नति के लिये ज्येष्ठता 11.07.2014 से दी जाएगी। इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीने पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल हैं जो कि वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

कप्तान मनु तिवारी एम एस-17274-एफ आयोग की तिथि 11.02.2014

को वेतन और पदोन्नति के लिये ज्येष्ठता 11.08.2013 से दी जाएगी। इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीने पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल हैं जो उपदान के लिए नहीं गिनी जाएगी, तथा नोशनल ज्येष्ठता 11.08.2013 से की गई जो कि वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

कप्तान एच एम काशी विश्वनाथ एम एस 17654-ए आयोग की तिथि 11.01.2015

को वेतन और पदोन्नति के लिये ज्येष्ठता 11.01.2012 से दी जाएगी। (इसमें स्नातकोत्तर योग्यता डॉक्टर ऑफ मेडिसीन (कम्युनिटी मेडिसिन) के लिए 36 महीने पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल हैं जो कि वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

कप्तान मोहित कटारुका एम एस-17562-एन आयोग की तिथि 01.01.2015

को वेतन और पदोन्नति के लिये ज्येष्ठता 01.07.2011 से दी जाएगी। इसमें 36 महीने स्नातकोत्तर योग्यता डॉक्टर ऑफ मेडिसीन (शारीरिक चिकित्सा और स्वास्थ्य लाभ) के लिए एवं 06 महीने हस्पताल नियुक्ति के लिए पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल हैं जो कि वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

कप्तान अक्षय शर्मा एम एस-17402-एन आयोग की तिथि 01.11.2014

को वेतन और पदोन्नति के लिये ज्येष्ठता 01.05.2014 से दी जाएगी। इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीने पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल हैं जो कि वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

कप्तान राज्जाक़र रहमान एम एस 17233—एक्स आयोग की तिथि 17.12.2013

को वेतन और पदोन्नति के लिये ज्येष्ठता 17.12.2010 से दी जाएगी। (इसमें स्नातकोत्तर योग्यता डॉक्टरऑफमेडिसीन (शरीरक्रियाशास्त्र) के लिए 36 महीने पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल हैं जो कि वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

कप्तान किरण कुमार देवरशेट्टी एम एस 17398-डब्लू आयोग की तिथि 01.11.2014

को वेतन और पदोन्नति के लिये ज्येष्ठता 01.11.2011 से दी जाएगी। (इसमें स्नातकोत्तर योग्यता डॉक्टर ऑफ मेडिसीन (जनरल मेडिसिन) के लिए 36 महीने पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल हैं जो कि वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रह किया जाता है)





कप्तान गौरव गर्ग एम एस—17686—एच कमीशन की तिथि 23.06.2015

को वेतन और पदोन्नति के लिये वरिष्ठता 23.12.2014 से दी जाएगी। इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीने पहले से दी गई वरिष्ठता शामिल हैं जो कि वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

कप्तानलीना सिंघल एम एस—17982—एन कमीशनकीतिथि—16.07.2015

को वेतन और पदोन्नति के लिये वरिष्ठता 16.07.2012 से दी जाएगी। इसमें 36 महीने स्नातकोत्तर योग्यता डॉक्टर ऑफ मेडिसीन (शिशुरोग चिकित्साशास्त्र) के लिए हैं जो कि वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

कप्तान जयराज एच एम एस—17513—एल कमीशन की तिथि 10.01.2015

को वेतन और पदोन्नति के लिये वरिष्ठता 10.07.2014 से दी जाएगी। इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीने पहले से दी गई वरिष्ठता शामिल हैं जो कि वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

कप्तान सिंधु एन एम एस—17498—एफ कमीशन की तिथि 11.01.2015

को वेतन और पदोन्नति के लिये वरिष्ठता 11.07.2014 से दी जाएगी। इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीने पहले से दी गई वरिष्ठता शामिल हैं जो कि वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

कप्तान सानन्दा रॉय एम एस—17190—एन कमीशन की तिथि 06.08.2013

को वेतन और पदोन्नति के लिये वरिष्ठता 06.02.2013 से दी जाएगी। इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीने पहले से दी गई वरिष्ठता शामिल हैं जो कि वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

कप्तान कुमार गौरव एम एस—17523—पी कमीशन की तिथि 10.01.2015

को वेतन और पदोन्नति के लिये वरिष्ठता 10.07.2014 से दी जाएगी। इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीने पहले से दी गई वरिष्ठता शामिल हैं जो कि वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

कप्तान नेहा सुमन एम एस 17674—एन कमीशन की तिथि 23.06.2015

को वेतन और पदोन्नति के लिये वरिष्ठता 23.06.2012 से दी जाएगी। (इसमें स्नातकोत्तर योग्यता मास्टर ऑफ सर्जरी (औरिनोलान्थेलेजी) के लिए 36 महीने पहले से दी गई वरिष्ठता शामिल हैं जो कि वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

कप्तान मनिंदर कौर ग्रेवल एम एस 17479—डब्लू कमीशन की तिथि 01.11.2014

को वेतन और पदोन्नति के लिये वरिष्ठता 01.11.2011 से दी जाएगी। (इसमें स्नातकोत्तर योग्यता डॉक्टरऑफमेडिसीन (बधिरिकरणशास्त्र) के लिए 36 महीने पहले से दी गई वरिष्ठता शामिल हैं जो कि वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

कप्तान शिरीन दीप्ती एस एम एस—17227—के कमीशन की तिथि 19.10.2013

को वेतन और पदोन्नति के लिये वरिष्ठता 19.04.2013 से दी जाएगी। इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीने पहले से दी गई वरिष्ठता शामिल हैं जो कि वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

कप्तान रितु कालरा एम एस 17701— एम कमीशन की तिथि 25.06.2015

को वेतन और पदोन्नति के लिये वरिष्ठता 25.06.2012 से दी जाएगी। इसमें डी एन बी (प्रसूति एवं स्त्री रोग) के लिए 36 महीने पहले से दी गई वरिष्ठता शामिल हैं जो कि वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

कप्तान सोनाली बोस एम एस 16711—के आयोग की तिथि 17.06.2010

को वेतन और पदोन्नति के लिये ज्येष्ठता 17.06.2008 से दी जाएगी। इसमें 24 महीने स्नातकोत्तर योग्यता क्षय एवं वक्ष रोग पत्रोपाधि में डिप्लोमाके लिए पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल हैं जो कि वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

कप्तान इन्दू गौड़ एम एस 17904—डब्ल्यू कमीशन की तिथि 01.11.2014

को वेतन और पदोन्नति के लिये वरिष्ठता 01.11.2011 से दी जाएगी। (इसमें स्नातकोत्तर योग्यता मास्टर ऑफ सर्जरी (प्रसूति और स्त्री-रोग) के लिए 36 महीने पहले से दी गई वरिष्ठता शामिल हैं जो कि वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

कप्तान मनीष सुरेश गोयल एम एस 17443—एक्स कमीशन की तिथि 01.11.2014

को वेतन और पदोन्नति के लिये वरिष्ठता 01.11.2011 से दी जाएगी। (इसमें स्नातकोत्तर योग्यता डॉक्टर ऑफ मेडिसीन (बधिरीकरणशास्त्र) के लिए 36 महीने पहले से दी गई वरिष्ठता शामिल हैं जो कि वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

कप्तान आशीष जैन एम एस 17739—डब्ल्यू कमीशन की तिथि 05.08.2015

को वेतन और पदोन्नति के लिये वरिष्ठता 05.08.2012 से दी जाएगी। इसमें स्नातकोत्तर योग्यता एम डी (रुग्णालय व्यवस्थापनशास्त्र) के लिए 36 महीने पहले से दी गई वरिष्ठता शामिल हैं जो कि वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

कप्तान निशांत जैकब मोडयील एम एस—17420—डब्ल्यू कमीशन की तिथि 01.11.2014

को वेतन और पदोन्नति के लिये वरिष्ठता 01.05.2014 से दी जाएगी। इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीने पहले से दी गई वरिष्ठता शामिल हैं जो कि वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

कप्तान पान्डेय किरिट राजेन्द्र एम एस—17505— एम आयोग की तिथि 29.12.2014

को वेतन और पदोन्नति के लिये ज्येष्ठता 29.06.2014 से दी जाएगी। इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीने पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल हैं जो कि वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

कप्तान विकास यादव एम एस—17199—एच आयोग की तिथि 06.08.2013

को वेतन और पदोन्नति के लिये ज्येष्ठता 06.02.2013 से दी जाएगी। इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीने पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल हैं जो कि वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

कप्तान प्रतीक भगवती एम एस—17480—एल आयोग की तिथि 01.11.2014

को वेतन और पदोन्नति के लिये ज्येष्ठता 01.05.2014 से दी जाएगी। इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीने पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल हैं जो कि वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

कप्तान रूपकिरण सिधु एम एस—17555— एम आयोग की तिथि 01.11.2014

को वेतन और पदोन्नति के लिये ज्येष्ठता 01.05.2014 से दी जाएगी। इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीने पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल हैं जो कि वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

|                           |                     |         |            |
|---------------------------|---------------------|---------|------------|
| कप्तान अंजय कुमार         | एम एस—17787 डब्ल्यू | ए एम सी | 18.07.2015 |
| कप्तान किरण गोपीनाथ भागवत | एम एस—17917 एन      | ए एम सी | 18.07.2015 |
| कप्तान बख्तार नेहा विजय   | एम एस—17939 एम      | ए एम सी | 23.06.2015 |
| कप्तान लीना सिंघल         | एम एस—17982 एन      | ए एम सी | 16.07.2015 |

|                               |                     |         |            |
|-------------------------------|---------------------|---------|------------|
| कप्तान हरमनजीत सिंह नट        | एम एस-18016 एन      | ए एम सी | 06.07.2015 |
| कप्तान शिक्कमल कौर            | एम एस-18017 डब्ल्यू | ए एम सी | 11.07.2015 |
| कप्तान सुमित दहिया            | एम एस-18019 एफ      | ए एम सी | 18.08.2015 |
| कप्तान कुणाल कौडिन्य          | एम एस-17960 पी      | ए एम सी | 30.06.2015 |
| कप्तान विमल कुमार             | एम एस-17961 एक्स    | ए एम सी | 30.06.2015 |
| कप्तान पुष्पेन्द्र कुमार यादव | एम एस-17965 एन      | ए एम सी | 04.07.2015 |
| कप्तान विक्रमजीत सिंह चौहान   | एम एस-17967 वाई     | ए एम सी | 06.07.2015 |
| कप्तान हर्षिका वडैहरा         | एम एस-17971 एफ      | ए एम सी | 09.07.2015 |
| कप्तान रविंदर राय             | एम एस-17975 एक्स    | ए एम सी | 10.07.2015 |
| कप्तान अभय गर्ग               | एम एस-17991 पी      | ए एम सी | 05.08.2015 |
| कप्तान अपूर्वा                | एम एस-18002 एन      | ए एम सी | 13.08.2015 |
| कप्तान सिमरनदीप सिंह          | एम एस-18007 एम      | ए एम सी | 17.08.2015 |
| कप्तान अनिल पंवार             | एम एस-18008 पी      | ए एम सी | 17.08.2015 |
| कप्तान मुजीर शरीफ मोल्ला      | एम एस-17681 के      | ए एम सी | 23.06.2015 |
| कप्तान अपूर्वा विनीता डिसूजा  | एम एस-17683 पी      | ए एम सी | 23.06.2015 |
| कप्तान मल्लिकार्जुन वि उ      | एम एस-17738 एन      | ए एम सी | 20.07.2015 |
| कप्तान हर्ष कुशवाहा           | एम एस-17759 के      | ए एम सी | 27.06.2015 |
| कप्तान सब्यसाची सेन           | एम एस-17760 वाई     | ए एम सी | 30.06.2015 |
| कप्तान सुवर्ण कला मौका        | एम एस-17771 एल      | ए एम सी | 23.06.2015 |
| कप्तान रघुनाथा रेड्डी जि      | एम एस-17772 एन      | ए एम सी | 23.06.2015 |
| कप्तान श्री सुमंत पेल्लूरु    | एम एस-17776 के      | ए एम सी | 07.07.2015 |
| कप्तान युगन प्रकाश            | एम एस-17783 ए       | ए एम सी | 17.07.2015 |
| कप्तान पिकेश कुमार यादव       | एम एस-17793 के      | ए एम सी | 19.08.2015 |
| कप्तान मुस्कान जैन            | एम एस-17806 डब्ल्यू | ए एम सी | 04.08.2015 |
| कप्तान सौम्या सिंह            | एम एस-17809 के      | ए एम सी | 04.08.2015 |
| कप्तान सौरभ मंगला             | एम एस-17810 वाई     | ए एम सी | 04.08.2015 |
| कप्तान नवीन कुमार चिंता       | एम एस-17824 वाई     | ए एम सी | 06.08.2015 |
| कप्तान अशफाक आलम              | एम एस-17828 पी      | ए एम सी | 07.08.2015 |
| कप्तान आनन्द सागर             | एम एस-17978 एल      | ए एम सी | 15.07.2015 |
| कप्तान अनुज जाखड़             | एम एस-17887 एफ      | ए एम सी | 10.07.2015 |
| कप्तान गौरव मिश्रा            | एम एस-17900 ए       | ए एम सी | 04.08.2015 |
| कप्तान मधुमिधा जी             | एम एस-17910 के      | ए एम सी | 04.07.2015 |
| कप्तान फराज हैदर              | एम एस-17919 वाई     | ए एम सी | 21.07.2015 |
| कप्तान अजय पंडिता             | एम एस-17931 ए       | ए एम सी | 23.06.2015 |
| कप्तान भावना रानी             | एम एस-17942 एम      | ए एम सी | 23.06.2015 |
| कप्तान रागीनी थापा            | एम एस-17950 एल      | ए एम सी | 24.06.2015 |

|                               |                     |         |            |
|-------------------------------|---------------------|---------|------------|
| कप्तान मोहित अग्रवाल          | एम एस-17952 डब्ल्यू | ए एम सी | 24.06.2015 |
| कप्तान क्रिति सिंह            | एम एस-17955 के      | ए एम सी | 26.06.2015 |
| कप्तान परमिंदर कौर            | एम एस-17672 एच      | ए एम सी | 23.06.2015 |
| कप्तान महेंदर दमुका           | एम एस-17699 ए       | ए एम सी | 24.06.2015 |
| कप्तान बी रवि किरण            | एम एस-17770 एच      | ए एम सी | 23.06.2015 |
| कप्तान हेमेन्द्र सिंह         | एम एस-17838 वाई     | ए एम सी | 11.08.2015 |
| कप्तान मेरुगु तेजविरात        | एम एस-17841 वाई     | ए एम सी | 11.08.2015 |
| कप्तान सुनील यादव             | एम एस-17857 के      | ए एम सी | 18.08.2015 |
| कप्तान दीनबंधु कुमार दिनकर    | एम एस-17858 एम      | ए एम सी | 18.08.2015 |
| कप्तान लक्कु वि मनोहर रेड्डी  | एम एस-17861 एम      | ए एम सी | 08.08.2015 |
| कप्तान अभिलाष कुमार जैसवाल    | एम एस-17868 डब्ल्यू | ए एम सी | 18.08.2015 |
| कप्तान गरिमा मसीह             | एम एस-17874 के      | ए एम सी | 23.06.2015 |
| कप्तान पाटील केतन राजेंद्र    | एम एस-17875 एम      | ए एम सी | 23.06.2015 |
| कप्तान सरिता कजोत             | एम एस-17883 एल      | ए एम सी | 01.07.2015 |
| कप्तान शाह चिराग राकेशभाई     | एम एस-17889 एम      | ए एम सी | 14.07.2015 |
| कप्तान सुहेल सिंह             | एम एस-17576 एन      | ए एम सी | 03.02.2015 |
| कप्तान वोडेपल्ली राजेश        | एम एस-17693 वाई     | ए एम सी | 24.06.2015 |
| कप्तान जी विस्वनात            | एम एस-17709 वाई     | ए एम सी | 27.06.2015 |
| कप्तान जरुपुला रविंदर         | एम एस-17710 एन      | ए एम सी | 27.06.2015 |
| कप्तान उदित रघुवंशी           | एम एस-17717 एक्स    | ए एम सी | 30.06.2015 |
| कप्तान बोज्जा दिव्या          | एम एस-17727 एफ      | ए एम सी | 09.07.2015 |
| कप्तान लोहित वीरप्पा के जी    | एम एस-17742 डब्ल्यू | ए एम सी | 01.11.2014 |
| कप्तान विनोद वी               | एम एस-17744 एफ      | ए एम सी | 01.11.2014 |
| कप्तान राघवेन्द्र सी पी       | एम एस-17782 एक्स    | ए एम सी | 17.07.2015 |
| कप्तान अमित राजन              | एम एस-17788 वाई     | ए एम सी | 04.08.2015 |
| कप्तान सुखप्रीत सिंह बोपाराये | एम एस-17789 एफ      | ए एम सी | 05.08.2015 |
| कप्तान प्रवीण कुमार           | एम एस-17812 के      | ए एम सी | 05.08.2015 |
| कप्तान अंकित शर्मा            | एम एस-17815 एक्स    | ए एम सी | 05.08.2015 |
| कप्तान सवाती                  | एम एस-17816 ए       | ए एम सी | 05.08.2015 |
| कप्तान सुधीर अहिरवार          | एम एस-17820 एच      | ए एम सी | 06.08.2015 |
| कप्तान बलप्रीत कौर            | एम एस-17822 एन      | ए एम सी | 06.08.2015 |
| कप्तान अनुराग कुमार           | एम एस-17831 पी      | ए एम सी | 08.08.2015 |
| कप्तान हितेश बहुगुणा          | एम एस-17833 ए       | ए एम सी | 08.08.2015 |
| कप्तान हेमप्रीत कौर           | एम एस-17903 एन      | ए एम सी | 11.01.2015 |
| कप्तान जी साईनाथ राम          | एम एस-17425 पी      | ए एम सी | 01.11.2014 |
| कप्तान शहीद यून्स             | एम एस-17429 एल      | ए एम सी | 01.11.2014 |

|                               |                     |         |            |
|-------------------------------|---------------------|---------|------------|
| कप्तान वि राजेश रेड्डी        | एम एस-17491 एक्स    | ए एम सी | 11.01.2015 |
| कप्तान अजय कुमार              | एम एस-17531 एन      | ए एम सी | 01.11.2014 |
| कप्तान निहारिका नगरि          | एम एस-17682 एम      | ए एम सी | 23.06.2015 |
| कप्तान दिलीप डी               | एम एस-17690 एल      | ए एम सी | 23.06.2015 |
| कप्तान लक्ष्मी एस बाबु        | एम एस-17795 पी      | ए एम सी | 22.09.2015 |
| कप्तान प्रवीन राजपूत          | एम एस-17797 ए       | ए एम सी | 04.08.2015 |
| कप्तान सुधान्त्यु महन्त       | एम एस-17798 एच      | ए एम सी | 04.08.2015 |
| कप्तान दीपक भारद्वाज          | एम एस-17803 एच      | ए एम सी | 04.08.2015 |
| कप्तान वन्दना चतुर्वेदी       | एम एस-17805 एन      | ए एम सी | 04.08.2015 |
| कप्तान अंकुश गुप्ता           | एम एस-17813 एम      | ए एम सी | 05.08.2015 |
| कप्तान अनुपमा सिंह            | एम एस-17837 डब्ल्यू | ए एम सी | 11.08.2015 |
| कप्तान कोला सुधर्शन           | एम एस-17840 डब्ल्यू | ए एम सी | 11.08.2015 |
| कप्तान किरण कुमार बंडलमुरी    | एम एस-17850 ए       | ए एम सी | 18.08.2015 |
| कप्तान प्रीति कदियान          | एम एस-17852 एल      | ए एम सी | 18.08.2015 |
| कप्तान मनाली मेहता            | एम एस-17915 एच      | ए एम सी | 16.07.2015 |
| कप्तान प्रिया                 | एम एस-17916 एल      | ए एम सी | 17.07.2015 |
| कप्तान पारुल वर्मा            | एम एस-17921 डब्ल्यू | ए एम सी | 29.08.2015 |
| कप्तान नितेश कुमार यादव       | एम एस-17847 ए       | ए एम सी | 14.08.2015 |
| कप्तान जसबीर सिंह             | एम एस-17862 पी      | ए एम सी | 11.08.2015 |
| कप्तान गड वासुदेव आत्माराम    | एम एस-17879 एच      | ए एम सी | 26.06.2015 |
| कप्तान वरिंदर                 | एम एस-17930 एक्स    | ए एम सी | 22.06.2015 |
| कप्तान गरिमा चौधरी            | एम एस-17933 एल      | ए एम सी | 23.06.2015 |
| कप्तान अतुल बिशनोई            | एम एस-17940 एफ      | ए एम सी | 23.06.2015 |
| कप्तान अमन कालिया             | एम एस-17941के       | ए एम सी | 23.06.2015 |
| कप्तान आशा कटारिया            | एम एस-17944 एक्स    | ए एम सी | 23.06.2015 |
| कप्तान जसलीन भाटिया           | एम एस-17957 पी      | ए एम सी | 27.06.2015 |
| कप्तान नेहा                   | एम एस-17985 एफ      | ए एम सी | 04.08.2015 |
| कप्तान आदित्य कुमार           | एम एस-17989 एक्स    | ए एम सी | 04.08.2015 |
| कप्तान विशेष चौहान            | एम एस-17990 एम      | ए एम सी | 04.08.2015 |
| कप्तान गौरव जी राणा           | एम एस-17994 एच      | ए एम सी | 07.08.2015 |
| कप्तान अशवनी                  | एम एस-17634 एम      | ए एम सी | 06.01.2015 |
| कप्तान रौशनी अन्नाम्मा चाको   | एम एस-17666 पी      | ए एम सी | 22.06.2015 |
| कप्तान सि एच हर्षवर्धन रेड्डी | एम एस-17708 डब्ल्यू | ए एम सी | 27.06.2015 |
| कप्तान षिजो थोमस              | एम एस-17723 एल      | ए एम सी | 03.07.2015 |
| कप्तान अविषेक शर्मा           | एम एस-17752 ए       | ए एम सी | 23.06.2015 |
| कप्तान मेनिका भारद्वाज        | एम एस-17778 पी      | ए एम सी | 14.07.2015 |

|                                 |                     |         |            |
|---------------------------------|---------------------|---------|------------|
| कप्तान लिवतार सिंह              | एम एस-17854 डब्ल्यू | ए एम सी | 18.08.2015 |
| कप्तान ब्रिजेश गर्ग             | एम एस-17987 एम      | ए एम सी | 04.08.2015 |
| कप्तान लोखंडे वैभव शिवराम       | एम एस-18025 पी      | ए एम सी | 16.07.2015 |
| कप्तान प्रियंका शर्मा           | एम एस-18027 ए       | ए एम सी | 23.06.2015 |
| कप्तान अवनीश कुमार              | एम एस-18037 के      | ए एम सी | 04.08.2015 |
| कप्तान पॉल जॉय                  | एम एस-18048 डब्ल्यू | ए एम सी | 19.08.2015 |
| कप्तान अनुपम शर्मा              | एम एस-18049 वाई     | ए एम सी | 29.09.2015 |
| कप्तान सिरला उदय कुमार          | एम एस-17799 एल      | ए एम सी | 04.08.2015 |
| कप्तान चिगुरुपति रविचन्द्र      | एम एस-17886 वाई     | ए एम सी | 09.07.2015 |
| कप्तान शिवानी गुप्ता            | एम एस-18003 डब्ल्यू | ए एम सी | 14.08.2015 |
| कप्तान अशोक कुमार मनुकोंडा      | एम एस-18046 एल      | ए एम सी | 18.08.2015 |
| कप्तान अनन्तु कुमार             | एम एस-18063 एल      | ए एम सी | 11.09.2015 |
| कप्तान गुंजित सिंह वालिया       | एम एस-18123 पी      | ए एम सी | 22.03.2016 |
| कप्तान शिलिमकर वंदन विठ्ठल      | एम एस-17724 एन      | ए एम सी | 03.07.2015 |
| कप्तान सुरजीत सिंह गंगवार       | एम एस-17893 पी      | ए एम सी | 18.07.2015 |
| कप्तान जहीरुद्दीन खान           | एम एस-17913 एक्स    | ए एम सी | 15.07.2015 |
| कप्तान साधना जौहरी              | एम एस-18018 वाई     | ए एम सी | 14.08.2015 |
| कप्तान संबित पात्रा             | एम एस-18191 एच      | ए एम सी | 27.06.2015 |
| कप्तान डार्लिने स्टेफनस दिनाकरन | एम एस-18193 एन      | ए एम सी | 15.07.2015 |
| कप्तान कुमार अरुण               | एम एस-17667 एक्स    | ए एम सी | 23.06.2015 |
| कप्तान मर्लापुडी सुधीर कुमार    | एम एस-17814 पी      | ए एम सी | 05.08.2015 |
| कप्तान प्रशान्त घटिगप्पा बेल्लद | एम एस-17826 के      | ए एम सी | 07.08.2015 |
| कप्तान केदारिसेट्टी संदीप कुमार | एम एस-17859 पी      | ए एम सी | 06.08.2015 |
| कप्तान सविता                    | एम एस-17890 एफ      | ए एम सी | 16.07.2015 |
| कप्तान अमन                      | एम एस-17896 एच      | ए एम सी | 26.08.2015 |
| कप्तान एम परिमला                | एम एस-17918 डब्ल्यू | ए एम सी | 18.07.2015 |
| कप्तान सृष्टी खुल्लर            | एम एस-17936 वाई     | ए एम सी | 23.06.2015 |

|                                  |                     |         |            |
|----------------------------------|---------------------|---------|------------|
| कप्तान रोहित विद्यार्थी          | एम एस-17943 पी      | ए एम सी | 23.06.2015 |
| कप्तान विनय कुमार                | एम एस-17995 एल      | ए एम सी | 08.08.2015 |
| कप्तान अरुण आर                   | एम एस-18021 वाई     | ए एम सी | 25.08.2015 |
| कप्तान गुन्जन भुटानी             | एम एस-18043 एक्स    | ए एम सी | 10.08.2015 |
| कप्तान गौतम कुमार वर्मा आर       | एम एस-18045 एच      | ए एम सी | 18.08.2015 |
| कप्तान विक्रान्त तंवर            | एम एस-17984 वाई     | ए एम सी | 04.08.2015 |
| कप्तान राजेश कुमार               | एम एस-17988 पी      | ए एम सी | 04.08.2015 |
| कप्तान राजेश कुशवाह              | एम एस-18006 के      | ए एम सी | 17.08.2015 |
| कप्तान श्यामवीर सिंह चौहान       | एम एस-18035 वाई     | ए एम सी | 18.07.2015 |
| कप्तान इन्द्रजीत कुमार           | एम एस-18051 डब्ल्यू | ए एम सी | 14.10.2015 |
| कप्तान दिव्यश्री जी एन           | एम एस-18058 ए       | ए एम सी | 04.08.2015 |
| कप्तान तपन कुमार दास             | एम एस-18061 ए       | ए एम सी | 11.08.2015 |
| कप्तान अरबाब                     | एम एस-17286 डब्ल्यू | ए एम सी | 11.02.2014 |
| कप्तान अरशदीप सिंह               | एम एस-17537 पी      | ए एम सी | 01.11.2014 |
| कप्तान रिद्धिमान मुखोपाध्याय     | एम एस-17769 एन      | ए एम सी | 23.06.2015 |
| कप्तान शिल्पी अगरवाल             | एम एस-17786 एन      | ए एम सी | 18.07.2015 |
| कप्तान शरण्या शिवदासन            | एम एस-17819 एन      | ए एम सी | 05.08.2015 |
| कप्तान भरतकुमार जी राठोड़        | एम एस-17830 एम      | ए एम सी | 07.08.2015 |
| कप्तान ज्योति                    | एम एस-17835 एल      | ए एम सी | 09.08.2015 |
| कप्तान अंकित सिंह भदोरिया        | एम एस-17880 एक्स    | ए एम सी | 30.06.2015 |
| कप्तान गरिमा त्रिपाठी            | एम एस-17888 के      | ए एम सी | 11.07.2015 |
| कप्तान शिशिर कुमार               | एम एस-17970 वाई     | ए एम सी | 08.07.2015 |
| कप्तान इलमुरुगन इ                | एम एस-17981एल       | ए एम सी | 15.07.2015 |
| कप्तान राहुल सिंह                | एम एस-18029एल       | ए एम सी | 01.07.2015 |
| कप्तान एश्वर्या जेस्सी कौर       | एम एस-18056 पी      | ए एम सी | 15.07.2015 |
| कप्तान माथुर प्रखरकुमार परजकुमार | एम एस-18067एफ       | ए एम सी | 10.01.2015 |
| कप्तान राकेश परमार               | एम एस-18069एम       | ए एम सी | 07.07.2015 |

|                       |                  |         |            |
|-----------------------|------------------|---------|------------|
| कप्तान पुनीत जैन      | एम एस-18071 के   | ए एम सी | 14.07.2015 |
| कप्तान अतुल गुप्ता    | एम एस-18074 एक्स | ए एम सी | 19.08.2015 |
| कप्तान अनुश्री तिवारी | एम एस-18075 ए    | ए एम सी | 04.03.2016 |

फ्ला. लेफ्टिनेंट के पद पर (परख पर)

फ्लाईट लेफ्टिनेंट अनुराधा, (एम एस-17280 पी) (एफ-33675-ए) (एक्स एम एस-14140एक्स), ए.एम.सी.कमीशन की तिथि 11.02.2014, वेतन एवम पदोन्नति के लिये वरिष्ठता 11.02.2007 से परभावी होगी जिसमें कुल सेवा 07 वर्ष (05 वर्ष उनकी पिछली पूर्ण वेतन कमीशन सेवा के और 02 वर्ष पीजी डिप्लोमा (यक्ष्मा एवं वक्षरोग) और डीएनबी (टूबरकुलोसिस और रेस्पिरेटरी मेडिसिन/पल्मनरी मेडिसिन) के लिये पूर्व-दिनांक वरिष्ठता शामिल है) जो कि उपदान के लिये नहीं गिनी जायगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

फ्ला. लेफ्टिनेंट पवन कुमार चिरीवेल्ला एम एस 17411 पी (ए एफ-34067-एच) आयोग की तिथि 01.11.2014

को वेतन और पदोन्नति के लिये ज्येष्ठता 01.11.2011 से दी जाएगी। इसमें स्नातकोत्तर योग्यता डॉक्टर ऑफ मेडिसिन (बधिरिकरणशास्त्र) के लिए 36 महीने पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल हैं जो उपदान के लिए नहीं गिनी जाएगी, तथा नोशनल ज्येष्ठता 01.11.2011 से की गई जो कि वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

फ्ला. लेफ्टिनेंट अफसर खानम एस एम एस 17469-एम (ए एफ 34088-बी) कमीशन की तिथि 10.01.2015

को वेतन और पदोन्नति के लिये वरिष्ठता 10.07.2011 से दी जाएगी। इसमें 36 महीने स्नातकोत्तर योग्यता डी एन बी (प्रसूति एवं स्त्री रोग विज्ञान) के लिए एवं 06 महीने हस्पताल नियुक्ति के लिए पहले से दी गई वरिष्ठता शामिल हैं जो उपदान के लिए नहीं गिनी जाएगी, तथा नोशनल वरिष्ठता 10.07.2011 से की गई जो कि वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

फ्ला. लेफ्टिनेंट अभिनव कलकल एम एस 17416-एन (ए एफ-34071 एल) कमीशन की तिथि 01.11.2014

को वेतन और पदोन्नति के लिये वरिष्ठता 01.05.2014 से दी जाएगी। इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीने पहले से दी गई वरिष्ठता शामिल हैं जो कि वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

फ्ला. लेफ्टिनेंट नितीश आर एम एस 17396-एल (ए एफ-34059 के) आयोग की तिथि 01.11.2014

को वेतन और पदोन्नति के लिये ज्येष्ठता 01.05.2014 से दी जाएगी। इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीने पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल हैं जो कि वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

फ्ला. लेफ्टिनेंट अनंतकृष्णन टी एम एस 17566-के (ए एफ-34084 एच) कमीशन की तिथि 05.01.2015

को वेतन और पदोन्नति के लिये वरिष्ठता 05.07.2014 से दी जाएगी। इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीने पहले से दी गई वरिष्ठता शामिल हैं जो कि वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

फ्ला. लेफ्टिनेंट साबिर अलि एम एस 17409-एक्स (ए एफ-34066 एफ) कमीशन की तिथि 01.11.2014

को वेतन और पदोन्नति के लिये वरिष्ठता 01.05.2014 से दी जाएगी। इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीने पहले से दी गई वरिष्ठता शामिल हैं जो कि वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

फ्ला. लेफ्टिनेंट सनेल सन्नी एम एस 17408-पी (ए एफ-34065 ए) कमीशन की तिथि 01.11.2014

को वेतन और पदोन्नति के लिये वरिष्ठता 01.05.2014 से दी जाएगी। इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीने पहले से दी गई वरिष्ठता शामिल हैं जो कि वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

पला. लेफ्टिनेंट अरिहंत पाण्डे एम एस 17421—वाई (ए एफ—34073 टी) आयोग की तिथि 01.11.2014

को वेतन और पदोन्नति के लिये ज्येष्ठता 01.05.2014 से दी जाएगी। इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीने पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल हैं जो कि वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

पला. लेफ्टिनेंट रोहित के पी एम एस 17560 एच (ए एफ—34078—एस) कमीशन की तिथि 01.11.2014

को वेतन और पदोन्नति के लिये वरिष्ठता 01.11.2011 से दी जाएगी। इसमें स्नातकोत्तर योग्यता डॉक्टर ऑफ मेडिसिन (एवियेशन मेडिसिन) के लिए 36 महीने पहले से दी गई वरिष्ठता शामिल हैं जो कि वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

पला. लेफ्टिनेंट दीप्ती जगदीश एम एस 17559 एन (ए एफ—34077—एन) कमीशन की तिथि 01.11.2014

को वेतन और पदोन्नति के लिये वरिष्ठता 01.11.2011 से दी जाएगी। इसमें स्नातकोत्तर योग्यता डॉक्टर ऑफ मेडिसिन (एवियेशन मेडिसिन) के लिए 36 महीने पहले से दी गई वरिष्ठता शामिल हैं जो कि वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

पला. लेफ्टिनेंट आकृति कश्यप एम एस 17656 एल (ए एफ—34397—जी) कमीशन की तिथि 06.06.2015

को वेतन और पदोन्नति के लिये वरिष्ठता 06.06.2012 से दी जाएगी। इसमें स्नातकोत्तर योग्यता डॉक्टर ऑफ मेडिसिन (पैथोलॉजी) के लिए 36 महीने पहले से दी गई वरिष्ठता शामिल हैं जो कि वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

पला. लेफ्टिनेंट अंकिता शर्मा एम एस 17041—ए (ए एफ—32387 बी) आयोग की तिथि 29.12.2012

को वेतन और पदोन्नति के लिये ज्येष्ठता 29.06.2012 से दी जाएगी। इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीने पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल हैं जो कि वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

|                                          |                                 |         |            |
|------------------------------------------|---------------------------------|---------|------------|
| पलाइट लेफ्टिनेन्ट शिल्पी सिंह            | एम एस—16874एक्स एएफ (32059एफ)   | ए एम सी | 22.11.2011 |
| पलाइट लेफ्टिनेन्ट पलाश षन्नीग्रही        | एम एस—17906एफ (34781एच)         | ए एम सी | 04.08.2015 |
| पलाइट लेफ्टिनेन्ट पिसल ऋषिकेश कृष्ण      | एम एस—17907 के (34782एल)        | ए एम सी | 04.08.2015 |
| पलाइट लेफ्टिनेन्ट यारम नागार्जुना रेड्डी | एम एस—17574एच (34090 टी)        | ए एम सी | 11.01.2015 |
| पलाइट लेफ्टिनेन्ट शाम्भवी सिंह           | एम एस—17745के (34086आर)         | ए एम सी | 07.01.2015 |
| पलाइट लेफ्टिनेन्ट रतिका चौहान            | एम एस—17353डब्ल्यू (33676एफ)    | ए एम सी | 13.03.2014 |
| पलाइट लेफ्टिनेन्ट अंशुल प्रकाश गुप्ता    | एम एस—17999एफ एफ—34794एफ)       | ए एम सी | 12.08.2015 |
| पलाइट लेफ्टिनेन्ट अशिका चौहान            | एम एस—17869 वाई (ए एफ—34759 ए)  | ए एम सी | 23.06.2015 |
| पलाइट लेफ्टिनेन्ट निधि सिंह              | एम एस—17873 एफ (ए एफ—34754 बी)  | ए एम सी | 23.06.2015 |
| पलाइट लेफ्टिनेन्ट फातिमा सयिदा शमीम      | एम एस—17897 एल (ए एफ—34398 के)  | ए एम सी | 02.07.2015 |
| पलाइट लेफ्टिनेन्ट अग्रिमा भाटिया         | एम एस—17922 वाई (ए एफ—34758 एस) | ए एम सी | 23.06.2015 |
| पलाइट लेफ्टिनेन्ट बृजमोहन डागा           | एम एस—17923 एफ (ए एफ—34777 एफ)  | ए एम सी | 15.07.2015 |

सर्जन लेफ्टिनेन्ट के पद पर (परख पर)

|                                 |                       |       |            |
|---------------------------------|-----------------------|-------|------------|
| सर्जन लेफ्टिनेन्ट कुन्दन वशिष्ठ | एम एस—17360 एम 76253ए | एएमसी | १७.१२.२०१३ |
|---------------------------------|-----------------------|-------|------------|

|                                            |                                 |         |            |
|--------------------------------------------|---------------------------------|---------|------------|
| सर्जन लेफ्टिनेन्ट सुनीश जकरिया             | एम एस-17937 एफ (76310 एफ)       | एएमसी   | 23.06.2015 |
| सर्जन लेफ्टिनेन्ट हर्षा एम आर              | एम एस-17908 एम (76315 टी)       | एएमसी   | 02.07.2015 |
| सर्जन लेफ्टिनेन्ट अभिलाषा कुमारी           | एम एस-17938 के (76311 एच)       | एएमसी   | 23.06.2015 |
| सर्जन लेफ्टिनेन्ट प्रियदर्शिनी बेहेरा      | एम एस-17871 डब्ल्यू (76318 जेड) | एएमसी   | 23.06.2015 |
| सर्जन लेफ्टिनेन्ट दीपक यादव                | एम एस-17878 ए (76312 के)        | एएमसी   | 26.06.2015 |
| सर्जन लेफ्टिनेन्ट सोनल शेखावत              | एम एस-17914 ए (76319 ए)         | एएमसी   | 15.07.2015 |
| सर्जन लेफ्टिनेन्ट बी विनोद                 | एम एस-17968 एफ (76325-आर)       | एएमसी   | 08.07.2015 |
| सर्जन लेफ्टिनेन्ट भास्कर ज्योति कलिता      | एम एस-17066 एम (76199-बी)       | ए एम सी | 01.03.2013 |
| सर्जन लेफ्टिनेन्ट हुमायूं कबीर रायचूर      | एम एस-17876 पी (76323-के)       | ए एम सी | 24.06.2015 |
| सर्जन लेफ्टिनेन्ट अमृता दतला               | एम एस-17899 डब्ल्यू (76317 वाई) | एएमसी   | 17.07.2015 |
| सर्जन लेफ्टिनेन्ट नाजरे दिपाली प्रकाश      | एम एस-17220ए (76247एन)          | एएमसी   | 19.10.2013 |
| सर्जन लेफ्टिनेन्ट सुनील कृष्ण मामिडी       | एम एस-17657एन (76296जड)         | एएमसी   | 03.01.2015 |
| सर्जन लेफ्टिनेन्ट बिनेश प्रभु बी           | एम एस-16976 एन (76165ए)         | एएमसी   | 21.09.2012 |
| सर्जन लेफ्टिनेन्ट शेजाले नवीन अशोक         | एम एस-17525 ए (76278एच)         | एएमसी   | 01.11.2014 |
| सर्जन लेफ्टिनेन्ट कसरबाडा वेंकटा हरीश      | एम एस-17474 एक्स (76302एन)      | एएमसी   | 11.01.2015 |
| सर्जन लेफ्टिनेन्ट पेम्मारजु साई नागा वल्ली | एम एस-18013 ए (76328-वाई)       | एएमसी   | 09.09.2015 |
| सर्जन लेफ्टिनेन्ट प्रशांत के एस            | एम एस-17746 एम (76298-बी)       | ए एम सी | 10.01.2015 |
| सर्जन लेफ्टिनेन्ट सूर्य वराह विनय लंडा     | एम एस-17870 एन (76322-एच)       | ए एम सी | 23.06.2015 |
| सर्जन लेफ्टिनेन्ट एस श्रीमोल               | एम एस-17877 एक्स (76324-एन)     | ए एम सी | 26.06.2015 |
| सर्जन लेफ्टिनेन्ट श्रीनिवास आर             | एम एस-18194 डब्ल्यू (76275-ए)   | ए एम सी | 01.11.2014 |
| सर्जन लेफ्टिनेन्ट अनामिका अहूजा            | एम एस-18195 वाई (76314-आर)      | ए एम सी | 18.07.2015 |
| सर्जन लेफ्टिनेन्ट प्रवीण एम जी             | एम एस-18198 एम (76329-जेड)      | ए एम सी | 19.08.2015 |
| सर्जन लेफ्टिनेन्ट अतुल विज                 | एम एस-17977 एच (76313-एन)       | एएमसी   | 15.07.2015 |

सर्जन लेफ्टिनेन्ट नाजरे दिपाली प्रकाश एम एस 17220-ए (76247-एन) कमीशन की तिथि 19.10.2013

को वेतन और पदोन्नति के लिये वरिष्ठता 19.10.2010 से दी जाएगी। इसमें स्नातकोत्तर योग्यता डी एन बी (जेनरल मेडिसिन) के लिए 36 महीने पहले से दी गई वरिष्ठता शामिल हैं जो कि वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

सर्जन लेफ्टिनेन्ट बिनेश प्रभु बी एम एस-16976-एन (76165-ए) कमीशन की तिथि 21.09.2012

को वेतन और पदोन्नति के लिये वरिष्ठता 21.03.2012 से दी जाएगी। इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीने पहले से दी गई वरिष्ठता शामिल हैं जो कि वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

सर्जन लेफ्टिनेंट अभिलाषा कुमारी एम एस—17938—के (76311—एच) कमीशन की तिथि 23.06.2015

को वेतन और पदोन्नति के लिये वरिष्ठता 23.12.2014 से दी जाएगी। इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीने पहले से दी गई वरिष्ठता शामिल हैं जो कि वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

सर्जन लेफ्टिनेंट हर्षा एम आर एम एस—17908 एम (76315—टी) कमीशन की तिथि 02.07.2015

को वेतन और पदोन्नति के लिये ज्येष्ठता 02.01.2015 से दी जाएगी। इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीने पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल हैं जो कि वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

सर्जन लेफ्टिनेंट अमृता दत्ता, (एम एस—17899 डब्ल्यू) (76317—वाई) (एक्स एम एस—14609—एच), ए.एम.सी.कमीशन की तिथि 17.07.2015, वेतन एवम पदोन्नति के लिये वरिष्ठता 04.03.2009 से पर भावि होगी जिसमें कुल सेवा 06 वर्ष 04 माह एवं 13 दिन (05 वर्ष 10 माह एवं 13 दिन उनकी पिछली पूर्ण वेतन कमीशन सेवा के और 06 माह अस्पताल नियुक्ति के लिये पूर्व—दिनांक वरिष्ठता शामिल है) जो कि उपादान के लिये नहीं गिनी जायगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

सर्जन लेफ्टिनेंट शिल्पा मंडल एम एस 17565—एफ (76292—आर) आयोग की तिथि 03.01.2015

को वेतन और पदोन्नति के लिये ज्येष्ठता 03.07.2014 से दी जाएगी। इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीने पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल हैं जो कि वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

|                                           |                                     |         |            |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|---------|------------|
| सर्जन लेफ्टिनेंट सोनम कुमारी              | एम एस—17949 डब्ल्यू (76327—डब्ल्यू) | एएमसी   | 24.06.2015 |
| सर्जन लेफ्टिनेंट सीतारामी रेड्डी यक्कन्ति | एम एस—17490 पी (76295—वाई)          | ए एम सी | 11.01.2015 |
| सर्जन लेफ्टिनेंट विवेक वोन्तीपुलि         | एम एस—17881 ए (76316—डब्ल्यू)       | ए एम सी | 30.06.2015 |

राष्ट्रपति महोदय यथा संशोधित थलसेना अनुदेश 75/78 के अधीन 7वर्ष के लिए निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं :-

नियमित सेना

अल्पकालीन कमीशन

(सेना चिकित्सा सेवा)

लेफ्टिनेन्ट के पद पर (परख पर)

|                           |                     |         |            |
|---------------------------|---------------------|---------|------------|
| लेफ्टी संदीप कुमार        | एम एस—17600 वाई     | ए एम सी | 18.03.2015 |
| लेफ्टी नंदिता             | एम एस—17609 एन      | ए एम सी | 18.03.2015 |
| लेफ्टी सुमेश मेनन         | एम एस—17610 एच      | ए एम सी | 18.03.2015 |
| लेफ्टी दिव्यांशु द्विवेदी | एम एस—17611 एल      | ए एम सी | 18.03.2015 |
| लेफ्टी प्रीति नेगी        | एम एस—17613 डब्ल्यू | ए एम सी | 18.03.2015 |
| लेफ्टी अनिकेत गुप्ता      | एम एस—17614 वाई     | ए एम सी | 18.03.2015 |
| लेफ्टी अभिषेक त्रिपाठी    | एम एस—17616 के      | ए एम सी | 18.03.2015 |
| लेफ्टी कन्हैया केशव       | एम एस—17617 एम      | ए एम सी | 18.03.2015 |
| लेफ्टी अंकुर शर्मा        | एम एस—17618 पी      | ए एम सी | 18.03.2015 |

|                             |                     |         |            |
|-----------------------------|---------------------|---------|------------|
| लेफटी अंकित उपाध्याय        | एम एस—17621 पी      | ए एम सी | 18.03.2015 |
| लेफटी प्रेरणा गल्होत्रा     | एम एस—17579 एफ      | ए एम सी | 18.03.2015 |
| लेफटी प्रथ्यक्षा ए वारियर   | एम एस—17580 डब्ल्यू | ए एम सी | 18.03.2015 |
| लेफटी निपुन राजगर्हिया      | एम एस—17584 एम      | ए एम सी | 18.03.2015 |
| लेफटी निधीश मोहन जे         | एम एस—17589 एल      | ए एम सी | 18.03.2015 |
| लेफटी रिया चोपड़ा           | एम एस—17590 ए       | ए एम सी | 18.03.2015 |
| लेफटी अनुराग डांडा          | एम एस—17591 एच      | ए एम सी | 18.03.2015 |
| लेफटी टोनी ई जोसफ           | एम एस—17592 एल      | ए एम सी | 18.03.2015 |
| लेफटी मोहम्मद फैजान         | एम एस—17601 एफ      | ए एम सी | 18.03.2015 |
| लेफटी अमल अलाना             | एम एस—17602 के      | ए एम सी | 18.03.2015 |
| लेफटी विष्णु प्रसाद एस      | एम एस—17604 पी      | ए एम सी | 18.03.2015 |
| लेफटी परिधि संजय गुप्ता     | एम एस—17605 एक्स    | ए एम सी | 18.03.2015 |
| लेफटी कृष्णा प्रसाद वी सतीश | एम एस—17607 एच      | ए एम सी | 18.03.2015 |
| लेफिट गौरव शुक्ला           | एम एस—17587 ए       | ए एम सी | 18.03.2015 |
| लेफिट बिमन लाहिड़ी          | एम एस—17588 एच      | ए एम सी | 18.03.2015 |
| लेफिट अनीश कुमार मिश्रा     | एम एस—17603 एम      | ए एम सी | 18.03.2015 |
| लेफिट अनिल कलोत्रा          | एम एस—17606 ए       | ए एम सी | 18.03.2015 |
| लेफिट आकाश उपाध्याय         | एम एस—17619 एक्स    | ए एम सी | 18.03.2015 |
| लेफिट सनोज                  | एम एस—17623 ए       | ए एम सी | 18.03.2015 |
| लेफिट पीयूष खत्री           | एम एस—17615 एफ      | ए एम सी | 18.03.2015 |
| लेफिट अभिजीत सिंह           | एम एस—17660एन       | ए एम सी | 24.08.2015 |
| लेफिट विशाल झा              | एम एस—17608 एल      | ए एम सी | 18.03.2015 |
| लेफिट आर एन हरीश            | एम एस—17620 एम      | ए एम सी | 18.03.2015 |
| लेफिट अजय कुमार यादव        | एम एस—17622 एक्स    | ए एम सी | 18.03.2015 |
| लेफिट सरोष अब्दुल्लाह       | एम एस—17612एन       | ए एम सी | 18.03.2015 |
| लेफिट अभिषेक शर्मा          | एम एस—17661डब्ल्यू  | ए एम सी | 24.08.2015 |

सर्जन सब लेफिटनेन्ट के पद पर (परखा पर)

|                                      |                               |       |            |
|--------------------------------------|-------------------------------|-------|------------|
| सर्जन सब लेफिटनेन्ट ओशिन मरिया पोल   | एम एस—17658 डब्ल्यू (76321एफ) | एएमसी | 24.08.2015 |
| सर्जन सब लेफिटनेन्ट सुभ्रान्शु कुमार | एम एस—17583 के (76331 बी)     | एएमसी | 18.03.2015 |

|                                  |                            |       |            |
|----------------------------------|----------------------------|-------|------------|
| सर्जन सब लेफ्टिनेन्ट अभिषेक पटेल | एम एस—17597 के (76306 वाई) | एएमसी | 18.03.2015 |
|----------------------------------|----------------------------|-------|------------|

आर के रान्याल  
एयर वाइस मार्शल  
अपर महानिदेशक स से चि से (मा.स.)

(सेना शाखा)

सं. 237, दिनांक 13 अक्टूबर 2016—राष्ट्रपति महोदय निम्नलिखित संशोधन करते हैं :—

अल्पकालीन कमीशन

(सेना चिकित्सा सेवा)

शुद्धि पत्र

वेतन और पदोंनती के लिए एम एस—16812 एक्स सर्जन लेफिट उज्मा मुल्ला (आयोग की तिथि— 27.09.2011) को दिया गया ज्येष्ठता जो की 30 अगस्त 2014 राजपत्र में प्रकाशित किया है, इस में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :

के लिए : सर्जन लेफिट की वरिष्ठता की तिथि सर्जन लेफिट कमांडर की वरिष्ठता की तिथि

27.03.2008

27.03.2012

पढ़े : सर्जन लेफिट की वरिष्ठता की तिथि सर्जन लेफिट कमांडर की वरिष्ठता की तिथि

27.09.2008

27.09.2012

वेतन और पदोंनती के लिए एम एस—16813 ए कप्तान मनुज जैन (आयोग की तिथि— 27.09.2011) को दिया गया ज्येष्ठता जो की 30 अगस्त 2014 राजपत्र में प्रकाशित किया है, इस में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है

के लिए : कप्तान की वरिष्ठता की तिथि मेजर की वरिष्ठता की तिथि

27.03.2008

27.03.2012

पढ़े : कप्तान की वरिष्ठता की तिथि मेजर की वरिष्ठता की तिथि

27.09.2008

27.09.2012

वेतन और पदोंनती के लिए एम एस—16876 एच कप्तान राहुल गुप्ता (आयोग की तिथि— 22.11.2011) को दिया गया ज्येष्ठता जो की 30 अगस्त 2014 राजपत्र में प्रकाशित किया है, इस में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है

के लिए : कप्तान की वरिष्ठता की तिथि मेजर की वरिष्ठता की तिथि

22.05.2008

22.05.2012

पढ़े : कप्तान की वरिष्ठता की तिथि मेजर की वरिष्ठता की तिथि

22.11.2008

22.11.2012

वेतन और पदोंनती के लिए एम एस—16744 पी कप्तान संजय (आयोग की तिथि— 19.07.2010) को दिया गया ज्येष्ठता जो की 30 अगस्त 2014 राजपत्र में प्रकाशित किया है, इस में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है

के लिए : कप्तान की वरिष्ठता की तिथि मेजर की वरिष्ठता की तिथि

19.01.2007

19.01.2011

पढ़े : कप्तान की वरिष्ठता की तिथि मेजर की वरिष्ठता की तिथि

19.07.2007

19.07.2011

वेतन और पदोंनती के लिए एम एस—16846 एल कप्तान कल्पना जैन (आयोग की तिथि— 28.09.2011) को दिया गया ज्येष्ठता जो की 30 अगस्त 2014 राजपत्र में प्रकाशित किया है, इस में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है

के लिए : कप्तान की वरिष्ठता की तिथि मेजर की वरिष्ठता की तिथि

28.03.2008

28.03.2012

पढ़े : कप्तान की वरिष्ठता की तिथि मेजर की वरिष्ठता की तिथि

28.09.2008

28.09.2012

वेतन और पदोंनती के लिए एम एस—16887 पी कप्तान संध्या घोडके (आयोग की तिथि— 17.01.2012) को दिया गया ज्येष्ठता जो की 30 अगस्त 2014 राजपत्र में प्रकाशित किया है, इस में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है द्य

के लिए : कप्तान की वरिष्ठता की तिथि मेजर की वरिष्ठता की तिथि

17.07.2008

17.07.2012

पढे : कप्तान की वरिष्ठताकी तिथि

मेजर की वरिष्ठताकी तिथि

17.01.2009

17.01.2013

शुद्धि पत्र

वेतन और पदोंनती के लिए एम एस—17140 एच कप्तान सुषमा मनराल (आयोग की तिथि— 06.08.2013) को दिया गया ज्येष्ठता जो की 11 जुलाई 2015 राजपत्र में प्रकाशित किया है, इस में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है द्य

के लिए : कप्तान की वरिष्ठता की तिथि मेजर की वरिष्ठता की तिथि

06.02.2010

06.02.2014

पढे : कप्तान की वरिष्ठताकी तिथि

मेजर की वरिष्ठता की तिथि

06.08.2010

06.08.2014

वेतन और पदोंनती के लिए एम एस—17049 एम कप्तान पल्लवी वर्मा आयोग की तिथि—29.12.2012) को दिया गया ज्येष्ठता जो की 17 अक्टूबर 2015 राजपत्र में प्रकाशित किया है, इस में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है द्य

के लिए : कप्तान की वरिष्ठता की तिथि मेजर की वरिष्ठता की तिथि

29.06.2009

29.06.2013

पढे : कप्तान की वरिष्ठता की तिथि

मेजर की वरिष्ठता की तिथि

29.12.2009

29.12.2013

वेतन और पदोंनती के लिए एम एस—17235 एच कप्तान धनंजय कुमार सिंह (आयोग की तिथि— 17.12.2013) को दिया गया ज्येष्ठता जो की 17 अक्टूबर 2015 राजपत्र में प्रकाशित किया है, इस में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है द्य

के लिए : कप्तान की वरिष्ठता की तिथि मेजर की वरिष्ठता की तिथि

17.06.2010

17.06.2014

पढे : कप्तान की वरिष्ठता की तिथि

मेजर की वरिष्ठता की तिथि

17.12.2010

17.12.2014

वेतन और पदोंनती के लिए एम एस—17165पी (ए एफ—33138 एन) पला लेफ्टि तिवारी विभा बट्टी विशाल (आयोग की तिथि— 06.08.2013) को दिया गया ज्येष्ठता जो की 11 जुलाई 2015 राजपत्र में प्रकाशित किया है, इस में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :

के लिए : कप्तान की वरिष्ठता की तिथि मेजर की वरिष्ठता की तिथि

06.02.2010

06.02.2014

पढे : कप्तान की वरिष्ठताकी तिथि

मेजर की वरिष्ठताकी तिथि

06.08.2010

06.08.2014

आर के रान्याल  
एयर वाइस मार्शल  
अपर महानिदेशक स से चि से (मा.स.)

## MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 19<sup>th</sup> November 2016

(ARMY BRANCH)

No. 236, dated 10<sup>th</sup> October 2016—The President is pleased to make the following appointment for a period of 5 years under AI 75/78 as amended :-

## REGULAR ARMY

## SHORT SERVICE COMMISSION

(TO BE CAPT ON PROBATION)

CAPT T SOMAN MS-17428H DOC- 01.11.2014

With seniority for pay and promotion from 01.05.2014. This includes 06 months antedate for hospital appointment, which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence Notification Publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

CAPT VASUNDHARA MEHTA MS-17545N DOC- 01.11.2014

With seniority for pay and promotion from 01.05.2014. This includes 06 months antedate for hospital appointment, which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence Notification Publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

CAPT YASASWI KHANDAVALLI MS-17405F DOC-01.11.2014

With seniority for pay and promotion from 01.11.2011. This includes 36 months antedate seniority for Master of Surgery (Obstetrics & Gynaecology), which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence notification publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

CAPT RUPAK KUMAR SINGH MS-17533Y DOC-01.11.2014

With seniority for pay and promotion from 01.11.2011. This includes 36 months antedate seniority for PG Degree MD (Psychology), which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence notification publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

CAPT BHARATMANI CHOUDHURY MS-17639L DOC- 11.01.2015

With seniority for pay and promotion from 11.07.2014. This includes 06 months antedate for hospital appointment, which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence Notification Publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

CAPT MANU TIWARI MS-17274F DOC- 11.02.2014

With seniority for pay and promotion from 11.08.2013. This includes 06 months antedate for hospital appointment, which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence Notification Publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

CAPT HM KASI VISWANATH MS-17654A DOC-11.01.2015

With seniority for pay and promotion from 11.01.2012. This includes 36 months antedate seniority for PG Degree MD (Community Medicine), which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence notification publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

CAPT MOHIT KATARUKA MS-17562-N DOC-01.01.2015

With seniority for pay and promotion from 01.07.2011. This includes 36 months antedate for PG Degree MD (Physical Medicine & Rehabilitation) and six months for house job appointment, which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence notification publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

CAPT AKSHAY SHARMA MS-17402N DOC-01.11.2014

With seniority for pay and promotion from 01.05.2014. This includes 06 months antedate for hospital appointment, which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence Notification Publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

CAPT RAZZAKUR RAHMAN MS-17233X DOC-17.12.2013

With seniority for pay and promotion from 17.12.2010. This includes 36 months antedate seniority for PG Degree MD (Physiology), which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence notification publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

CAPT KIRAN KUMAR DEVARSHETTY MS-17398W DOC-01.11.2014

With seniority for pay and promotion from 01.11.2011. This includes 36 months antedate seniority for PG Degree MD (General Medicine), which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence notification publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

CAPT KYVS CHARAN MS-17501W DOC-01.11.2014

With seniority for pay and promotion from 01.05.2014. This includes 06 months antedate for hospital appointment, which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence Notification Publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

CAPT GURCHARAN SINGH RANDHAWA MS-17571P DOC- 10.01.2015

With seniority for pay and promotion from 10.07.2014. This includes 06 months antedate for hospital appointment, which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence Notification Publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

CAPT ARIF AHMED MS-17538X DOC- 01.11.2014

With seniority for pay and promotion from 01.05.2014. This includes 06 months antedate for hospital appointment, which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence Notification Publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

CAPT KALYAN KUMAR REDDY PV MS-17547Y DOC- 01.11.2014

With seniority for pay and promotion from 01.05.2014. This includes 06 months antedate for hospital appointment, which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence Notification Publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

CAPT ROBIN DUBEY MS-17637A DOC- 11.01.2015

With seniority for pay and promotion from 11.07.2014. This includes 06 months antedate for hospital appointment, which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence Notification Publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

CAPT AREET BHANGU MS-17459H DOC- 30.12.2014

With seniority for pay and promotion from 30.06.2014. This includes 06 months antedate for hospital appointment, which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence Notification Publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

CAPT KHANAPURE AMOL VIJAY MS-17741N DOC-12.08.2015

With seniority for pay and promotion from 12.08.2012. This includes 36 months antedate seniority for PG Degree MD (Pharmacology), which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence notification publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

CAPT YUGANK RAI MS-17644W DOC-01.11.2014

With seniority for pay and promotion from 01.11.2012. This includes 24 months antedate seniority for PG Diploma in (Child Health), which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence notification publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

CAPT SOMESH MADHAV KAUL MS-17417W DOC-01.11.2014

With seniority for pay and promotion from 01.05.2014. This includes 06 months antedate for hospital appointment, which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence Notification Publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

CAPT NISHU BALA MS-17470F DOC-10.01.2015

With seniority for pay and promotion from 10.01.2012. This includes 36 months antedate seniority for PG Degree MD (Dermatology), which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence notification publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

CAPT DAMODARAN G MS-17557H DOC-01.11.2014

With seniority for pay and promotion from 01.05.2014. This includes 06 months antedate for hospital appointment, which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence Notification Publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

CAPT SANTOSH KUMAR MS-17737L DOC-20.07.2015

With seniority for pay and promotion from 20.01.2015. This includes 06 months antedate for hospital appointment, which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence Notification Publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

CAPT KAGALI AMEYA MAHESH MS-17536M DOC-01.11.2014

With seniority for pay and promotion from 01.05.2014. This includes 06 months antedate for hospital appointment, which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence Notification Publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

CAPT NEERA SINGH MS-17731K DOC-14.07.2015

With seniority for pay and promotion from 14.07.2013. This includes 24 months antedate seniority for PG Diploma in (Obstetrics & Gynaecology), which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence notification publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

CAPT SUMEET SINGH MS-17743Y DOC-01.11.2014

With seniority for pay and promotion from 01.05.2014. This includes 06 months antedate for hospital appointment, which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence Notification Publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

CAPT SIRAJSHARIF B NADAF MS-17652P DOC-01.01.2015

With seniority for pay and promotion from 01.07.2014. This includes 06 months antedate for hospital appointment, which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence Notification Publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

CAPT DOBI SRAVAN KUMAR MS-17715M DOC-30.06.2015

With seniority for pay and promotion from 30.06.2012. This includes 36 months antedate seniority for PG Degree MD (Forensic Medicine), which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence notification publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

CAPT PRASHANT JHA MS-17732M DOC-15.07.2015

With seniority for pay and promotion from 15.07.2012. This includes 36 months antedate seniority for PG Degree Master of Surgery (General Surgery), which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence notification publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

CAPT ASHISH MS-17796X DOC-01.01.2015

With seniority for pay and promotion from 01.07.2014. This includes 06 months antedate for hospital appointment, which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence Notification Publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

CAPT NEELAM BHAGAT MS-17735A DOC-16.07.2015

With seniority for pay and promotion from 16.07.2012. This includes 36 months antedate seniority for PG Degree Master of Surgery (Ophthalmology), which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence notification publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

CAPT GAURAV GARG MS-17686H DOC-23.06.2015

With seniority for pay and promotion from 23.12.2014. This includes 06 months antedate for hospital appointment, which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence Notification Publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

CAPT LEENA SINGHAL MS-17982N DOC-16.07.2015

With seniority for pay and promotion from 16.07.2012. This includes 36 months antedate seniority for MD (Paediatrics) which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence notification publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

CAPT JAYARAJ H MS-17513L DOC-10.01.2015

With seniority for pay and promotion from 10.07.2014. This includes 06 months antedate for hospital appointment, which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence Notification Publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

CAPT SINDHU N MS-17498F DOC-11.01.2015

With seniority for pay and promotion from 11.07.2014. This includes 06 months antedate for hospital appointment, which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence Notification Publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

CAPT SANANDA ROY MS-17190N DOC-06.08.2013

With seniority for pay and promotion from 06.02.2013. This includes 06 months antedate for hospital appointment, which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence Notification Publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

CAPT KUMAR GAURAV MS-17523P DOC-10.01.2015

With seniority for pay and promotion from 10.07.2014. This includes 06 months antedate for hospital appointment, which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence Notification Publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

CAPT NEHA SUMAN MS-17674N DOC-23.06.2015

With seniority for pay and promotion from 23.06.2012. This includes 36 months antedate seniority for PG Degree Master of Surgery (Otorhinolaryngology), which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence notification publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

CAPT MANINDER KAUR GREWAL MS-17479W DOC-01.11.2014

With seniority for pay and promotion from 01.11.2011. This includes 36 months antedate seniority for PG Degree MD (Anaesthesiology), which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence notification publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

CAPT SHIREEN DEEPTHI S MS-17227K DOC-19.10.2013

With seniority for pay and promotion from 19.04.2013. This includes 06 months antedate for hospital appointment, which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence Notification Publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

CAPT REETU KALRA MS-17701M DOC-25.06.2015

With seniority for pay and promotion from 25.06.2012. This includes 36 months antedate seniority for DNB in Obst & Gynae which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence notification publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

CAPT SONALI BOSE MS-16711K DOC-17.06.2010

With seniority for pay and promotion from 17.06.2008. This includes 24 months antedate seniority for PG Diploma in (T.B. & Chest Diseases), which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence notification publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

CAPT INDU GAUR MS-17904W DOC-01.11.2014

With seniority for pay and promotion from 01.11.2011. This includes 36 months antedate seniority for PG Degree Master of Surgery (Obstetrics & Gynaecology), which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence notification publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

CAPT MANISH SURESH GOYAL MS-17443X DOC-01.11.2014

With seniority for pay and promotion from 01.11.2011. This includes 36 months antedate seniority for PG Degree M.D (Anaesthesiology), which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence notification publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

CAPT ASHISH JAIN MS-17739W DOC-05.08.2015

With seniority for pay and promotion from 05.08.2012. This includes 36 months antedate seniority for PG Degree M.D (Hospital Administration), which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence notification publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

CAPT NISHANT JACOB MODAYIL MS-17420W DOC-01.11.2014

With seniority for pay and promotion from 01.05.2014. This includes 06 months antedate for hospital appointment, which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence Notification Publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

CAPT PANDEY KIRIT RAJENDRA MS-17505M DOC-29.12.2014

With seniority for pay and promotion from 29.06.2014. This includes 06 months antedate for hospital appointment, which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence Notification Publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

CAPT VIKAS YADAV MS-17199H DOC-06.08.2013

With seniority for pay and promotion from 06.02.2013. This includes 06 months antedate for hospital appointment, which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence Notification Publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

CAPT PRATEEK BHAGWATI MS-17480L DOC-01.11.2014

With seniority for pay and promotion from 01.05.2014. This includes 06 months antedate for hospital appointment, which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence Notification Publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

CAPT ROOPKIRAN SIDHU MS-17555M DOC- 01.11.2014

With seniority for pay and promotion from 01.05.2014. This includes 06 months antedate for hospital appointment, which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence Notification Publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

|                              |           |     |            |
|------------------------------|-----------|-----|------------|
| CAPT ANJAY KUMAR             | MS-17787W | AMC | 18.07.2015 |
| CAPT KIRAN GOPINATH BHAGWAT  | MS-17917N | AMC | 18.07.2015 |
| CAPT BAKHTAR NEHA VIJAY      | MS-17939M | AMC | 23.06.2015 |
| CAPT LEENA SINGHAL           | MS-17982N | AMC | 16.07.2015 |
| CAPT HARMANJEET SINGH NATT   | MS-18016N | AMC | 06.07.2015 |
| CAPT SHIVKAMAL KAUR          | MS-18017W | AMC | 11.07.2015 |
| CAPT SUMIT DAHIYA            | MS-18019F | AMC | 18.08.2015 |
| CAPT KUNAL KOUNDINYA         | MS-17960P | AMC | 30.06.2015 |
| CAPT VIMAL KUMAR             | MS-17961X | AMC | 30.06.2015 |
| CAPT PUSHPENDRA KUMAR YADAV  | MS-17965N | AMC | 04.07.2015 |
| CAPT VIKRAMJIT SINGH CHOUHAN | MS-17967Y | AMC | 06.07.2015 |
| CAPT HARSHIKA VADEHRA        | MS-17971F | AMC | 09.07.2015 |
| CAPT RAVINDER RAI            | MS-17975X | AMC | 10.07.2015 |
| CAPT ABHAY GARG              | MS-17991P | AMC | 05.08.2015 |
| CAPT APOORVA                 | MS-18002N | AMC | 13.08.2015 |
| CAPT SIMRANDEEP SINGH        | MS-18007M | AMC | 17.08.2015 |
| CAPT ANIL PANWAR             | MS-18008P | AMC | 17.08.2015 |

|                              |           |     |            |
|------------------------------|-----------|-----|------------|
| CAPT MUZEER SHARIF MOLLA     | MS-17681K | AMC | 23.06.2015 |
| CAPT APOORVA VINEETHA DSOUZA | MS-17683P | AMC | 23.06.2015 |
| CAPT MALLIKARJUN V U         | MS-17738N | AMC | 20.07.2015 |
| CAPT HARSH KUSHWAHA          | MS-17759K | AMC | 27.06.2015 |
| CAPT SABYASACHI SEN          | MS-17760Y | AMC | 30.06.2015 |
| CAPT SUVARNA KALA MOKA       | MS-17771L | AMC | 23.06.2015 |
| CAPT RAGHUNADHA REDDY G      | MS-17772N | AMC | 23.06.2015 |
| CAPT SRI SUMANTH PELLURU     | MS-17776K | AMC | 07.07.2015 |
| CAPT YUGAN PRAKASH           | MS-17783A | AMC | 17.07.2015 |
| CAPT PINKESH KUMAR YADAV     | MS-17793K | AMC | 19.08.2015 |
| CAPT MUSKAN JAIN             | MS-17806W | AMC | 04.08.2015 |
| CAPT SAUMYA SINGH            | MS-17809K | AMC | 04.08.2015 |
| CAPT SAURABH MANGLA          | MS-17810Y | AMC | 04.08.2015 |
| CAPT NAVEEN KUMAR CHINTHA    | MS-17824Y | AMC | 06.08.2015 |
| CAPT ASHFAQUE ALAM           | MS-17828P | AMC | 07.08.2015 |
| CAPT ANAND SAGAR             | MS-17978L | AMC | 15.07.2015 |
| CAPT ANUJ JAKHAR             | MS-17887F | AMC | 10.07.2015 |
| CAPT GAURAV MISHRA           | MS-17900A | AMC | 04.08.2015 |
| CAPT MADHUMIDHA G            | MS-17910K | AMC | 04.07.2015 |
| CAPT FARAZ HAIDER            | MS-17919Y | AMC | 21.07.2015 |
| CAPT AJAY PANDITA            | MS-17931A | AMC | 23.06.2015 |
| CAPT BHAVANA RANI            | MS-17942M | AMC | 23.06.2015 |
| CAPT RAGINI THAPA            | MS-17950L | AMC | 24.06.2015 |
| CAPT MOHIT AGRAWAL           | MS-17952W | AMC | 24.06.2015 |
| CAPT KRITI SINGH             | MS-17955K | AMC | 26.06.2015 |
| CAPT PARMINDER KAUR          | MS-17672H | AMC | 23.06.2015 |
| CAPT MAHENDAR DAMUKA         | MS-17699A | AMC | 24.06.2015 |
| CAPT B RAVI KIRAN            | MS-17770H | AMC | 23.06.2015 |
| CAPT HEMENDRA SINGH          | MS-17838Y | AMC | 11.08.2015 |
| CAPT MERUGU TEJVIRAT         | MS-17841Y | AMC | 11.08.2015 |
| CAPT SUNIL YADAV             | MS-17857K | AMC | 18.08.2015 |
| CAPT DEENBANDHU KUMAR DINKAR | MS-17858M | AMC | 18.08.2015 |
| CAPT LAKKU V MANOHAR REDDY   | MS-17861M | AMC | 08.08.2015 |
| CAPT ABHILASH KUMAR JAISWAL  | MS-17868W | AMC | 18.08.2015 |
| CAPT GARIMA MASEEH           | MS-17874K | AMC | 23.06.2015 |
| CAPT PATIL KETAN RAJENDRA    | MS-17875M | AMC | 23.06.2015 |
| CAPT SARITA KAJOT            | MS-17883L | AMC | 01.07.2015 |
| CAPT SHAH CHIRAG RAKESHBHAI  | MS-17889M | AMC | 14.07.2015 |
| CAPT SUHAIL SINGH            | MS-17576N | AMC | 03.02.2015 |

|                              |           |     |            |
|------------------------------|-----------|-----|------------|
| CAPT VODDEPALLI RAJESH       | MS-17693Y | AMC | 24.06.2015 |
| CAPT G VISWANATH             | MS-17709Y | AMC | 27.06.2015 |
| CAPT JARUPULA RAVINDER       | MS-17710N | AMC | 27.06.2015 |
| CAPT UDIT RAGHUBANSHI        | MS-17717X | AMC | 30.06.2015 |
| CAPT BOJJA DIVYA             | MS-17727F | AMC | 09.07.2015 |
| CAPT LOHITH VEERAPPA KG      | MS-17742W | AMC | 01.11.2014 |
| CAPT VINOTH V                | MS-17744F | AMC | 01.11.2014 |
| CAPT RAGHAVENDRA CP          | MS-17782X | AMC | 17.07.2015 |
| CAPT AMIT RAJAN              | MS-17788Y | AMC | 04.08.2015 |
| CAPT SUKHPREET SINGH BOPARAI | MS-17789F | AMC | 05.08.2015 |
| CAPT PRAVEEN KUMAR           | MS-17812K | AMC | 05.08.2015 |
| CAPT ANKIT SHARMA            | MS-17815X | AMC | 05.08.2015 |
| CAPT SWATI                   | MS-17816A | AMC | 05.08.2015 |
| CAPT SUDHIR AHIRWAR          | MS-17820H | AMC | 06.08.2015 |
| CAPT BALPREET KAUR           | MS-17822N | AMC | 06.08.2015 |
| CAPT ANURAG KUMAR            | MS-17831P | AMC | 08.08.2015 |
| CAPT HITESH BAHUGUNA         | MS-17833A | AMC | 08.08.2015 |
| CAPT HEMPREET KAUR           | MS-17903N | AMC | 11.01.2015 |
| CAPT G SAINATH RAM           | MS-17425P | AMC | 01.11.2014 |
| CAPT SHAHID YUNAS            | MS-17429L | AMC | 01.11.2014 |
| CAPT V RAJESH REDDY          | MS-17491X | AMC | 11.01.2015 |
| CAPT AJAY KUMAR              | MS-17531N | AMC | 01.11.2014 |
| CAPT NIHARIKA NAGARI         | MS-17682M | AMC | 23.06.2015 |
| CAPT DILEEP D                | MS-17690L | AMC | 23.06.2015 |
| CAPT LAKSHMY S BABU          | MS-17795P | AMC | 22.09.2015 |
| CAPT PRAVEEN RAJPUT          | MS-17797A | AMC | 04.08.2015 |
| CAPT SUDHANSHU MAHANT        | MS-17798H | AMC | 04.08.2015 |
| CAPT DEEPAK BHARDWAJ         | MS-17803H | AMC | 04.08.2015 |
| CAPT VANDANA CHATURVEDI      | MS-17805N | AMC | 04.08.2015 |
| CAPT ANKUSH GUPTA            | MS-17813M | AMC | 05.08.2015 |
| CAPT ANUPAMA SINGH           | MS-17837W | AMC | 11.08.2015 |
| CAPT KOLA SUDHARSHANA        | MS-17840W | AMC | 11.08.2015 |
| CAPT KIRAN KUMAR BANDLAMURI  | MS-17850A | AMC | 18.08.2015 |
| CAPT PREETI KADIAN           | MS-17852L | AMC | 18.08.2015 |
| CAPT MANALI MEHTA            | MS-17915H | AMC | 16.07.2015 |
| CAPT PRIYA                   | MS-17916L | AMC | 17.07.2015 |
| CAPT PARUL VERMA             | MS-17921W | AMC | 29.08.2015 |
| CAPT NITESH KUMAR YADAV      | MS-17847A | AMC | 14.08.2015 |

|                                   |           |     |            |
|-----------------------------------|-----------|-----|------------|
| CAPT JASBIR SINGH                 | MS-17862P | AMC | 11.08.2015 |
| CAPT GAD VASUDEV ATMARAM          | MS-17879H | AMC | 26.06.2015 |
| CAPT VARINDER                     | MS-17930X | AMC | 22.06.2015 |
| CAPT GARIMA CHAUDHARY             | MS-17933L | AMC | 23.06.2015 |
| CAPT ATUL BISHNOI                 | MS-17940F | AMC | 23.06.2015 |
| CAPT AMAN KALIA                   | MS-17941K | AMC | 23.06.2015 |
| CAPT ASHA KATARIA                 | MS-17944X | AMC | 23.06.2015 |
| CAPT JASLEEN BHATIA               | MS-17957P | AMC | 27.06.2015 |
| CAPT NEHA                         | MS-17985F | AMC | 04.08.2015 |
| CAPT ADITYA KUMAR                 | MS-17989X | AMC | 04.08.2015 |
| CAPT VISHESH CHAUHAN              | MS-17990M | AMC | 04.08.2015 |
| CAPT GAURAV JI RANA               | MS-17994H | AMC | 07.08.2015 |
| CAPT ASHWANI                      | MS-17634M | AMC | 06.01.2015 |
| CAPT ROSHNI ANNAMMA CHACKO        | MS-17666P | AMC | 22.06.2015 |
| CAPT CH HARSHAVARDHAN REDDY       | MS-17708W | AMC | 27.06.2015 |
| CAPT SHIJO THOMAS                 | MS-17723L | AMC | 03.07.2015 |
| CAPT AVISHEK SHARMA               | MS-17752A | AMC | 23.06.2015 |
| CAPT MENIKA BHARDWAJ              | MS-17778P | AMC | 14.07.2015 |
| CAPT LIVTAR SINGH                 | MS-17854W | AMC | 18.08.2015 |
| CAPT BRIJESH GARG                 | MS-17987M | AMC | 04.08.2015 |
| CAPT LOKHANDE VAIBHAV SHIVRAM     | MS-18025P | AMC | 16.07.2015 |
| CAPT PRIYANKA SHARMA              | MS-18027A | AMC | 23.06.2015 |
| CAPT AVNISH KUMAR                 | MS-18037K | AMC | 04.08.2015 |
| CAPT PAUL JOY                     | MS-18048W | AMC | 19.08.2015 |
| CAPT ANUPAM SHARMA                | MS-18049Y | AMC | 29.09.2015 |
| CAPT SIRLA UDAYKUMAR              | MS-17799L | AMC | 04.08.2015 |
| CAPT CHIGURUPATI RAVICHAND        | MS-17886Y | AMC | 09.07.2015 |
| CAPT SHIWANI GUPTA                | MS-18003W | AMC | 14.08.2015 |
| CAPT ASHOK KUMAR MANUKONDA        | MS-18046L | AMC | 18.08.2015 |
| CAPT ANANTU KUMAR                 | MS-18063L | AMC | 11.09.2015 |
| CAPT GUNJIT SINGH WALIA           | MS-18123P | AMC | 22.03.2016 |
| APT SHILIMKAR VANDAN VITTHAL      | MS-17724N | AMC | 03.07.2015 |
| CAPT SURJIT SINGH GANGWAR         | MS-17893P | AMC | 18.07.2015 |
| CAPT ZAHERUDDIN KHAN              | MS-17913X | AMC | 15.07.2015 |
| CAPT SADHNA JAUHARI               | MS-18018Y | AMC | 14.08.2015 |
| CAPT SAMBIT PATRA                 | MS-18191H | AMC | 27.06.2015 |
| CAPT DEARLINE STEPHANAS DINAKARAN | MS-18193N | AMC | 15.07.2015 |
| CAPT KUMAR ARUN                   | MS-17667X | AMC | 23.06.2015 |
| CAPT MARLAPUDI SUDHEER KUMAR      | MS-17814P | AMC | 05.08.2015 |

|                                     |           |     |            |
|-------------------------------------|-----------|-----|------------|
| CAPT PRASHANT GHATIGEPPA BELLAD     | MS-17826K | AMC | 07.08.2015 |
| CAPT KEDARISSETTY SANDEEP KUMAR     | MS-17859P | AMC | 06.08.2015 |
| CAPT SAVITA                         | MS-17890F | AMC | 16.07.2015 |
| CAPT AMAN                           | MS-17896H | AMC | 26.08.2015 |
| CAPT M PARIMALA                     | MS-17918W | AMC | 18.07.2015 |
| CAPT SRISHTI KHULLAR                | MS-17936Y | AMC | 23.06.2015 |
| CAPT ROHIT VIDYARTHI                | MS-17943P | AMC | 23.06.2015 |
| CAPT VINAY KUMAR                    | MS-17995L | AMC | 08.08.2015 |
| CAPT ARUN R                         | MS-18021Y | AMC | 25.08.2015 |
| CAPT GUNJAN BHUTANI                 | MS-18043X | AMC | 10.08.2015 |
| CAPT GOWTHAM KUMAR VARMA R          | MS-18045H | AMC | 18.08.2015 |
| CAPT VIKRANT TANWAR                 | MS-17984Y | AMC | 04.08.2015 |
| CAPT RAJESH KUMAR                   | MS-17988P | AMC | 04.08.2015 |
| CAPT RAJESH KUSHWAH                 | MS-18006K | AMC | 17.08.2015 |
| CAPT SHYAMVEER SINGH CHAUHAN        | MS-18035Y | AMC | 18.07.2015 |
| CAPT INDRAJIT KUMAR                 | MS-18051W | AMC | 14.10.2015 |
| CAPT DIVYASHREE GN                  | MS-18058A | AMC | 04.08.2015 |
| CAPT TAPAN KUMAR DAS                | MS-18061A | AMC | 11.08.2015 |
| CAPT ARBAB                          | MS-17286W | AMC | 11.02.2014 |
| CAPT ARASHDEEP SINGH                | MS-17537P | AMC | 01.11.2014 |
| CAPT RIDDHIMAN MUKHOPADHYAY         | MS-17769N | AMC | 23.06.2015 |
| CAPT SHILPI AGARWAL                 | MS-17786N | AMC | 18.07.2015 |
| CAPT SARANYA SIVADASAN              | MS-17819N | AMC | 05.08.2015 |
| CAPT BHARATKUMAR G RATHOD           | MS-17830M | AMC | 07.08.2015 |
| CAPT JYOTI                          | MS-17835L | AMC | 09.08.2015 |
| CAPT ANKIT SINGH BHADORIA           | MS-17880X | AMC | 30.06.2015 |
| CAPT GARIMA TRIPATHI                | MS-17888K | AMC | 11.07.2015 |
| CAPT SHISHIR KUMAR                  | MS-17970Y | AMC | 08.07.2015 |
| CAPT ELAMURUGAN E                   | MS-17981L | AMC | 15.07.2015 |
| CAPT RAHUL SINGH                    | MS-18029L | AMC | 01.07.2015 |
| CAPT ESHWARYA JESSY KAUR            | MS-18056P | AMC | 15.07.2015 |
| CAPT MATHUR PRAKHARKUMAR PARAJKUMAR | MS-18067F | AMC | 10.01.2015 |
| CAPT RAKESH PARMAR                  | MS-18069M | AMC | 07.07.2015 |
| CAPT PUNEET JAIN                    | MS-18071K | AMC | 14.07.2015 |
| CAPT ATUL GUPTA                     | MS-18074X | AMC | 19.08.2015 |
| CAPT ANUSHREE TIWARI                | MS-18075A | AMC | 04.03.2016 |

## (TO BE FLT LT ON PROBATION)

FLT LT ANURADHA (MS-17280P)(AF-33675A) (EX MS-14140X) AMC, DOC 11.02.2014 WITH SENIORITY FOR PAY AND PROMOTION WITH EFFECT FROM 11.02.2007. THIS INCLUDES TOTAL 07 YEARS SERVICE (05 YEARS FOR PREVIOUS FULL PAY COMMISSION SERVICE AND 02 YEARS FOR PG DIPLOMA IN TUBERCULOUS & CHEST DISEASES AND DNB (TUBERCULOSIS & RESPIRATORY DISEASES/ PULMONARY MEDICINE), WHICH WILL NOT COUNT FOR GRATUITY. SENIORITY IN THE RANK OF FLT LT WILL RECKONS WITH EFFECT FROM 11.02.2007.

(MINISTRY OF DEFENCE NOTIFICATION PUBLICATION IN SO FAR AS IT RELATES TO THE ABOVE NAMED OFFICER IS HEREBY CANCELLED).

FLT LT PAVAN KUMAR CHIRIVELA MS-17411P (AF-34067H) DOC-01.11.2014

With seniority for pay and promotion from 01.11.2011. This includes 36 months antedate for PG Degree MD (Anaesthesiology), which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence notification publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

FLT LT AFSER KHANUM SM MS-17469M (AF-34088B) DOC-10.01.2015

With seniority for pay and promotion from 10.07.2011. This includes 36 months antedate seniority for PG Degree DNB(Obstetrics & Gynaecology) and 06 months for hospital appointment, which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence notification publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

FLT LT ABHINAV KALKAL MS-17416N (AF-34071-L) DOC-01.11.2014

With seniority for pay and promotion from 01.05.2014. This includes 06 months antedate for hospital appointment which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence notification publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

FLT LT NITISH RM MS-17396L (AF-34059-K) DOC-01.11.2014

With seniority for pay and promotion from 01.05.2014. This includes 06 months antedate for hospital appointment which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence notification publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

FLT LT ANANDHA KRISHNAN T MS-17566K (AF-34084H) DOC-05.01.2015

With seniority for pay and promotion from 05.07.2014. This includes 06 months antedate for hospital appointment which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence notification publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

FLT LT SABIR ALI MS-17409X (AF-34066F) DOC-01.11.2014

With seniority for pay and promotion from 01.05.2014. This includes 06 months antedate for hospital appointment which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence notification publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

FLT LT SANEL SUNNY MS-17408P (AF-34065A) DOC-01.11.2014

With seniority for pay and promotion from 01.05.2014. This includes 06 months antedate for hospital appointment which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence notification publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

FLT LT ARIHANT PANDEY MS-17421Y (AF-34073-T) DOC-01.11.2014

With seniority for pay and promotion from 01.05.2014. This includes 06 months antedate for hospital appointment which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence notification publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

FLT LT ROHITH KP MS-17560H (AF-34078-S) DOC-01.11.2014

With seniority for pay and promotion from 01.11.2011. This includes 36 months antedate for PG Degree MD (Aviation Medicine), which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence notification publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

FLT LT DEEPTHY JAGADISH MS-17559N (AF-34077-N) DOC-01.11.2014

With seniority for pay and promotion from 01.11.2011. This includes 36 months antedate for PG Degree MD (Aviation Medicine), which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence notification publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

FLT LT AKRITI KASHYAP MS-17656L (AF-34397-G) DOC-06.06.2015

With seniority for pay and promotion from 06.06.2012. This includes 36 months antedate for PG Degree MD (Pathology), which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence notification publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

FLT LT ANKITA SHARMA MS-17041A (AF-32387-B) DOC-29.12.2012

With seniority for pay and promotion from 29.06.2012. This includes 06 months antedate for hospital appointment which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence notification publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

|                                 |                                 |     |            |
|---------------------------------|---------------------------------|-----|------------|
| FLT LT SHILPEE SINGH            | <u>MS-16874X</u><br>(AF-32059F) | AMC | 22.11.2011 |
| FLT LT POLASH SANNIGRAHI        | <u>MS-17906F</u><br>(34781H)    | AMC | 04.08.2015 |
| FLT LT PISAL HRISHIKESH KRISHNA | <u>MS-17907K</u><br>(34782L)    | AMC | 04.08.2015 |
| FLT LT YARRAM NAGARJUNA REDDY   | <u>MS-17574H</u><br>(34090T)    | AMC | 11.01.2015 |
| FLT LT SHAMBHAVEE SINGH         | <u>MS-17745K</u><br>(34086R)    | AMC | 07.01.2015 |
| FLT LT RATIKA CHAUHAN           | <u>MS-17353W</u><br>(33676F)    | AMC | 13.03.2014 |
| FLT LT ANSHUL PRAKASH GUPTA     | <u>MS-17999F</u><br>(34794F)    | AMC | 12.08.2015 |
| FLT LT ASHIKA CHAUHAN           | <u>MS-17869Y</u><br>(AF-34759A) | AMC | 23.06.2015 |
| FLT LT NIDHI SINGH              | <u>MS-17873F</u><br>(AF-34754B) | AMC | 23.06.2015 |
| FLT LT FATIMA SYEDA SHAMIM      | <u>MS-17897L</u><br>(AF-34398K) | AMC | 02.07.2015 |
| FLT LT AGRIMA BHATIA            | <u>MS-17922Y</u><br>(AF-34758S) | AMC | 23.06.2015 |
| FLT LT BRIJ MOHAN DAGA          | <u>MS-17923F</u><br>(AF-34777F) | AMC | 15.07.2015 |

(TO BE SURG LT ON PROBATION)

|                              |                              |     |            |
|------------------------------|------------------------------|-----|------------|
| SURG LT KUNDAN VASHISHTHA    | <u>MS-17360M</u><br>76253A   | AMC | 17.12.2013 |
| SURG LT SUNISH ZACHARIAH     | <u>MS-17937F</u><br>(76310F) | AMC | 23.06.2015 |
| SURG LT HARSHA M R           | <u>MS-17908M</u><br>(76315T) | AMC | 02.07.2015 |
| SURG LT ABHILASHA KUMARI     | <u>MS-17938K</u><br>(76311H) | AMC | 23.06.2015 |
| SURG LT PRIYADARSHINI BEHERA | <u>MS-17871W</u><br>(76318Z) | AMC | 23.06.2015 |
| SURG LT DEEPAK YADAV         | <u>MS-17878A</u><br>(76312K) | AMC | 26.06.2015 |
| SURG LT SONAL SHEKHAWAT      | <u>MS-17914A</u><br>(76319A) | AMC | 15.07.2015 |

|                                   |                               |     |            |
|-----------------------------------|-------------------------------|-----|------------|
| SURG LT B VINOD                   | <u>MS-17968F</u><br>(76325-R) | AMC | 08.07.2015 |
| SURG LT BHASKAR JYOTI KALITA      | <u>MS-17066M</u><br>(76199-B) | AMC | 01.03.2013 |
| SURG LT HUMAYUN KABEER RAICHUR    | <u>MS-17876P</u><br>(76323-K) | AMC | 24.06.2015 |
| SURG LT AMRITA DATLA              | <u>MS-17899W</u><br>(76317Y)  | AMC | 17.07.2015 |
| SURG LT NAJARE DEEPALI PRAKASH    | <u>MS-17220A</u><br>(76247N)  | AMC | 19.10.2013 |
| SURG LT SUNIL KRISHNA MAMIDI      | <u>MS-17657N</u><br>(76296Z)  | AMC | 03.01.2015 |
| SURG LT BINESH PRABU B            | <u>MS-16976 N</u><br>(76165A) | AMC | 21.09.2012 |
| SURG LT SHEJALE NAVEEN ASHOK      | <u>MS-17525 A</u><br>(76278H) | AMC | 01.11.2014 |
| SURG LT KASARABADA VENKATA HARISH | <u>MS-17474X</u><br>(76302N)  | AMC | 11.01.2015 |
| SURG LT PEMMARAJU SAI NAGA VALLI  | <u>MS-18013A</u><br>(76328-Y) | AMC | 09.09.2015 |
| SURG LT PRASHANT KS               | <u>MS-17746M</u><br>(76298-B) | AMC | 10.01.2015 |
| SURG LT SURYA VARAHA VINAY LANDA  | <u>MS-17870N</u><br>(76322-H) | AMC | 23.06.2015 |
| SURG LT S SREEMOL                 | <u>MS-17877X</u><br>(76324-N) | AMC | 26.06.2015 |
| SURG LT SRINIVAS R                | <u>MS-18194W</u><br>(76275-A) | AMC | 01.11.2014 |
| SURG LT ANAMICA AHUJA             | <u>MS-18195Y</u><br>(76314-R) | AMC | 18.07.2015 |
| SURG LT PRAVEEN MG                | <u>MS-18198M</u><br>(76329-Z) | AMC | 19.08.2015 |
| SURG LT ATUL VIJ                  | <u>MS-17977H</u><br>(76313-N) | AMC | 15.07.2015 |

SURG LT NAJARE DEEPALI PRAKASH MS-17220A (76247N) DOC-19.10.2013

With seniority for pay and promotion from 19.10.2010. This includes 36 months antedate seniority for DNB (General Medicine) which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence notification publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

SURG LT BINESH PRABU B MS-16976N (76165-A) DOC-21.09.2012

With seniority for pay and promotion from 21.03.2012. This includes 06 months antedate for hospital appointment, which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence Notification Publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

SURG LT ABHILASHA KUMARI MS-17938K (76311 H) DOC-23.06.2015

With seniority for pay and promotion from 23.12.2014. This includes 06 months antedate for hospital appointment, which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence Notification Publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

SURG LT HARSHA MR MS-17908M (76315-T) DOC-02.07.2015

With seniority for pay and promotion from 02.01.2015. This includes 06 months antedate for hospital appointment, which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence Notification Publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

SURG LT AMRITA DATLA(MS-17899W) (76317Y) (EX MS-14609-H) AMC,  
DOC 17.07.2015 WITH SENIORITY FOR PAY AND PROMOTION WITH EFFECT  
FROM 04.03.2009. THIS INCLUDES TOTAL 06 YEARS 04 MONTHS & 13  
DAYS SERVICE (05 YEARS 10 MONTHS & 13 DAYS FOR PREVIOUS FULL  
PAY COMMISSION SERVICE AND 06 MONTHS FOR HOUSE JOB), WHICH WILL  
NOT COUNT FOR GRATUITY. SENIORITY IN THE RANK OF SURG LT WILL  
RECKONS WITH EFFECT FROM 04.03.2009.

(MINISTRY OF DEFENCE NOTIFICATION PUBLICATION IN SO FAR AS IT RELATES TO THE ABOVE  
NAMED OFFICER IS HEREBY CANCELLED).

SURG LT SHILPA MANDAL MS-17565F (76292-R) DOC-03.01.2015

With seniority for pay and promotion from 03.07.2014. This includes 06 months antedate for hospital appointment,  
which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence Notification publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

|                                 |                        |     |            |
|---------------------------------|------------------------|-----|------------|
| SURG LT SONAM KUMARI            | MS-17949W<br>(76327-W) | AMC | 24.06.2015 |
| SURG LT SITARAMI REDDY YAKKANTI | MS-17490P<br>(76295Y)  | AMC | 11.01.2015 |
| SURG LT VIVEK VONTIPULI         | MS-17881A<br>(76316W)  | AMC | 30.06.2015 |

The President is pleased to make the following appointment for a period of 7 years under AI 75/78 as amended:

#### REGULAR ARMY

#### SHORT SERVICE COMMISSION

(To be LIEUT on probation)

|                         |           |     |            |
|-------------------------|-----------|-----|------------|
| LT SANDEEP KUMAR        | MS-17600Y | AMC | 18.03.2015 |
| LT NANDITA              | MS-17609N | AMC | 18.03.2015 |
| LT SUMESH MENON         | MS-17610H | AMC | 18.03.2015 |
| LT DIVYANSHU DWIVEDI    | MS-17611L | AMC | 18.03.2015 |
| LT PREETI NEGI          | MS-17613W | AMC | 18.03.2015 |
| LT ANIKET GUPTA         | MS-17614Y | AMC | 18.03.2015 |
| LT ABHISHEK TRIPATHI    | MS-17616K | AMC | 18.03.2015 |
| LT KANHAIYA KESHAV      | MS-17617M | AMC | 18.03.2015 |
| LT ANKUR SHARMA         | MS-17618P | AMC | 18.03.2015 |
| LT ANKIT UPADHYAY       | MS-17621P | AMC | 18.03.2015 |
| LT PRERNA GALHOTRA      | MS-17579F | AMC | 18.03.2015 |
| LT PRATHYAKSHA A VARIAR | MS-17580W | AMC | 18.03.2015 |
| LT NIPUN RAJGARHIA      | MS-17584M | AMC | 18.03.2015 |
| LT NIDHEESH MOHAN J     | MS-17589L | AMC | 18.03.2015 |
| LT RIA CHOPRA           | MS-17590A | AMC | 18.03.2015 |
| LT ANURAG DANDA         | MS-17591H | AMC | 18.03.2015 |
| LT TONY E JOSEPH        | MS-17592L | AMC | 18.03.2015 |
| LT MOHD FAIZAN          | MS-17601F | AMC | 18.03.2015 |

|                            |           |     |            |
|----------------------------|-----------|-----|------------|
| LT AMAL ALANA              | MS-17602K | AMC | 18.03.2015 |
| LT VISHNU PRASAD S         | MS-17604P | AMC | 18.03.2015 |
| LT PARIDHI SANJAY GUPTA    | MS-17605X | AMC | 18.03.2015 |
| LT KRISHNAPRASAD V SATHEES | MS-17607H | AMC | 18.03.2015 |
| LT GAURAV SHUKLA           | MS-17587A | AMC | 18.03.2015 |
| LT BIMAN LAHIRI            | MS-17588H | AMC | 18.03.2015 |
| LT ANISH KUMAR MISHRA      | MS-17603M | AMC | 18.03.2015 |
| LT ANIL KALOTRA            | MS-17606A | AMC | 18.03.2015 |
| LT AAKASH UPADHYAY         | MS-17619X | AMC | 18.03.2015 |
| LT SANOJ                   | MS-17623A | AMC | 18.03.2015 |
| LT PEEYUSH KHATRI          | MS-17615F | AMC | 18.03.2015 |
| LT ABHIJEET SINGH          | MS-17660N | AMC | 24.08.2015 |
| LT VISHAL JHA              | MS-17608L | AMC | 18.03.2015 |
| LT R N HARISH              | MS-17620M | AMC | 18.03.2015 |
| LT AJAY KUMAR YADAV        | MS-17622X | AMC | 18.03.2015 |
| LT SAROSH ABDULLAH         | MS-17612N | AMC | 18.03.2015 |
| LT ABHISHEK SHARMA         | MS-17661W | AMC | 24.08.2015 |

(To be SURG SUB LT on probation)

|                              |                              |     |            |
|------------------------------|------------------------------|-----|------------|
| SURG SUB LT OSHIN MARIA PAUL | <u>MS-17658W</u><br>(76321F) | AMC | 24.08.2015 |
| SURG SUB LT SUBHRANSHU KUMAR | <u>MS-17583K</u><br>(76331B) | AMC | 18.03.2015 |
| SURG SUB LT ABHISHEK PATEL   | <u>MS-17597K</u><br>(76306Y) | AMC | 18.03.2015 |

RK RANYAL  
Air Vice Marshal  
Addl DGAFMS (HR)  
O/o The DGAFMS

## ARMY BRANCH

No. 237, dated the 13<sup>th</sup> October 2016—The President is pleased to make the following amendment:

## REGULAR ARMY

## SHORT SERVICE COMMISSION

## CORRIGENDA

THE DATE OF SENIORITY FOR PAY AND PROMOTION, CONSEQUENT TO GRANT OF ANTE DATE SENIORITY, IN RESPECT OF MS-16812X SURG LT CDR UZMA MULLA (DOC :27.09.2011) PUBLISHED IN GOVT OF INDIA GAZETTE DATED 30 AUG 2014 IS AMENDED AS FOLLOWS:

|             |   |                 |                     |
|-------------|---|-----------------|---------------------|
| <u>FOR</u>  | : | DOS FOR SURG LT | DOS FOR SURG LT CDR |
|             |   | 27.03.2008      | 27.03.2012          |
| <u>READ</u> | : | DOS FOR SURG LT | DOS FOR SURG LT CDR |
|             |   | 27.09.2008      | 27.09.2012          |

THE DATE OF SENIORITY FOR PAY AND PROMOTION, CONSEQUENT TO GRANT OF ANTE DATE SENIORITY, IN RESPECT OF MS-16813A CAPT MANUJ JAIN (DOC :27.09.2011) PUBLISHED IN GOVT OF INDIA GAZETTE DATED 30 AUG 2014 IS AMENDED AS FOLLOWS:

|             |   |              |             |
|-------------|---|--------------|-------------|
| <u>FOR</u>  | : | DOS FOR CAPT | DOS FOR MAJ |
|             |   | 27.03.2008   | 27.03.2012  |
| <u>READ</u> | : | DOS FOR CAPT | DOS FOR MAJ |
|             |   | 27.09.2008   | 27.09.2012  |

THE DATE OF SENIORITY FOR PAY AND PROMOTION, CONSEQUENT TO GRANT OF ANTE DATE SENIORITY, IN RESPECT OF MS-16876H CAPT RAHUL GUPTA (DOC :22.11.2011) PUBLISHED IN GOVT OF INDIA GAZETTE DATED 30 AUG 2014 IS AMENDED AS FOLLOWS:

|             |   |              |             |
|-------------|---|--------------|-------------|
| <u>FOR</u>  | : | DOS FOR CAPT | DOS FOR MAJ |
|             |   | 22.05.2008   | 22.05.2012  |
| <u>READ</u> | : | DOS FOR CAPT | DOS FOR MAJ |
|             |   | 22.11.2008   | 22.11.2012  |

THE DATE OF SENIORITY FOR PAY AND PROMOTION, CONSEQUENT TO GRANT OF ANTE DATE SENIORITY, IN RESPECT OF MS-16744P CAPT SANJAY (DOC :19.07.2010) PUBLISHED IN GOVT OF INDIA GAZETTE DATED 30 AUG 2014 IS AMENDED AS FOLLOWS:

|             |   |              |             |
|-------------|---|--------------|-------------|
| <u>FOR</u>  | : | DOS FOR CAPT | DOS FOR MAJ |
|             |   | 19.01.2007   | 19.01.2011  |
| <u>READ</u> | : | DOS FOR CAPT | DOS FOR MAJ |
|             |   | 19.07.2007   | 19.07.2011  |

THE DATE OF SENIORITY FOR PAY AND PROMOTION, CONSEQUENT TO GRANT OF ANTE DATE SENIORITY, IN RESPECT OF MS-16846L CAPT KALPANA JAIN (DOC :28.09.2011) PUBLISHED IN GOVT OF INDIA GAZETTE DATED 30 AUG 2014 IS AMENDED AS FOLLOWS:

|             |   |              |             |
|-------------|---|--------------|-------------|
| <u>FOR</u>  | : | DOS FOR CAPT | DOS FOR MAJ |
|             |   | 28.03.2008   | 28.03.2012  |
| <u>READ</u> | : | DOS FOR CAPT | DOS FOR MAJ |
|             |   | 28.09.2008   | 28.09.2012  |

THE DATE OF SENIORITY FOR PAY AND PROMOTION, CONSEQUENT TO GRANT OF ANTE DATE SENIORITY, IN RESPECT OF MS-16887P CAPT SANDHYA GHODKE (DOC :17.01.2012) PUBLISHED IN GOVT OF INDIA GAZETTE DATED 30 AUG 2014 IS AMENDED AS FOLLOWS:

|             |   |              |             |
|-------------|---|--------------|-------------|
| <u>FOR</u>  | : | DOS FOR CAPT | DOS FOR MAJ |
|             |   | 17.07.2008   | 17.07.2012  |
| <u>READ</u> | : | DOS FOR CAPT | DOS FOR MAJ |
|             |   | 17.01.2009   | 17.01.2013  |

THE DATE OF SENIORITY FOR PAY AND PROMOTION, CONSEQUENT TO GRANT OF ANTE DATE SENIORITY, IN RESPECT OF MS-17140H CAPT SUSHMA MANRAL (DOC :06.08.2013) PUBLISHED IN GOVT OF INDIA GAZETTE DATED 11 JUL 2015 IS AMENDED AS FOLLOWS:

|             |   |              |             |
|-------------|---|--------------|-------------|
| <u>FOR</u>  | : | DOS FOR CAPT | DOS FOR MAJ |
|             |   | 06.02.2010   | 06.02.2014  |
| <u>READ</u> | : | DOS FOR CAPT | DOS FOR MAJ |
|             |   | 06.08.2010   | 06.08.2014  |

THE DATE OF SENIORITY FOR PAY AND PROMOTION, CONSEQUENT TO GRANT OF ANTE DATE SENIORITY, IN RESPECT OF MS-17049M CAPT PALLAVI VERMA (DOC :29.12.2012) PUBLISHED IN GOVT OF INDIA GAZETTE DATED 17 OCT 2015 IS AMENDED AS FOLLOWS:

|             |   |              |             |
|-------------|---|--------------|-------------|
| <u>FOR</u>  | : | DOS FOR CAPT | DOS FOR MAJ |
|             |   | 29.06.2009   | 29.06.2013  |
| <u>READ</u> | : | DOS FOR CAPT | DOS FOR MAJ |
|             |   | 29.12.2009   | 29.12.2013  |

THE DATE OF SENIORITY FOR PAY AND PROMOTION, CONSEQUENT TO GRANT OF ANTE DATE SENIORITY, IN RESPECT OF MS-17235H CAPT DHANANJAY KUMAR SINGH (DOC :17.12.2013) PUBLISHED IN GOVT OF INDIA GAZETTE DATED 17 OCT 2015 IS AMENDED AS FOLLOWS:

|             |   |              |             |
|-------------|---|--------------|-------------|
| <u>FOR</u>  | : | DOS FOR CAPT | DOS FOR MAJ |
|             |   | 17.06.2010   | 17.06.2014  |
| <u>READ</u> | : | DOS FOR CAPT | DOS FOR MAJ |
|             |   | 17.12.2010   | 17.12.2014  |

THE DATE OF SENIORITY FOR PAY AND PROMOTION, CONSEQUENT TO GRANT OF ANTE DATE SENIORITY, IN RESPECT OF MS-17165P (AF-33138N) FLT LT TIWARI VIBHA BADRI VISHAL (DOC :06.08.2013) PUBLISHED IN GOVT OF INDIA GAZETTE DATED 11 JUL 2015 IS AMENDED AS FOLLOWS:

|             |   |              |             |
|-------------|---|--------------|-------------|
| <u>FOR</u>  | : | DOS FOR CAPT | DOS FOR MAJ |
|             |   | 06.02.2010   | 06.02.2014  |
| <u>READ</u> | : | DOS FOR CAPT | DOS FOR MAJ |
|             |   | 06.08.2010   | 06.08.2014  |

RK RANYAL  
Air Vice Marshal  
Addl DGAFMS (HR)  
O/o The DGAFMS

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में  
अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा ई-प्रकाशित, 2016  
UPLOADED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T.  
FARIDABAD AND E-PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2016

www.dop.nic.in